



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 13—अक्टूबर 19, 2012 (आश्विन 21, 1934)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 13—OCTOBER 19, 2012 (ASVINA 21, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 2012

राष्ट्रपति सचिवालय

सं. 101-प्रेज/2012-दिनांक 15 अगस्त, 2012--राष्ट्रपति,
15614636डब्ल्यू लांस नायक पाटे तास्सुक, सेना मेडल, ब्रिगेड ऑफ द
गार्ड्स/21वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल (मरणोपरांत) को असाधारण
साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल-बार" प्रदान करने
का अनुमोदन करते हैं।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 102-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण
साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल" प्रदान करने का
अनुमोदन करते हैं:--

1. आईसी-54038एक्स कर्नल विक्रान्त जैन, तोपखाना रेजिमेंट/98वीं
फील्ड रेजिमेंट

2. आईसी-60963डब्ल्यू मेजर रविन्द्र कुमार गुरुंग, शौर्य चक्र,
तोपखाना रेजिमेंट/33वीं फील्ड रेजिमेंट
3. आईसी-62696वाई मेजर अमरीक सिंह, 666 सेना विमानन
स्क्वाड्रन (आर एंड ओ)
4. आईसी-63211एक्स मेजर चिरोम इबुंगो, 8वीं बटालियन द गढ़वाल
राईफल
5. आईसी-63503ए मेजर भारत शर्मा, बिहार रेजिमेंट/24वीं बटालियन
द राष्ट्रीय राईफल
6. आईसी-64358ए मेजर जुनियर मुतुम, इंजीनियर्स कोर/15वीं
बटालियन द असम राईफल
7. आईसी-66682डब्ल्यू मेजर रंजीत कुमार झा, ब्रिगेड ऑफ द
गार्ड्स/21वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल
8. आईसी-67159एक्स मेजर एन. दिनेश, द ग्रेनेडियर्स/55वीं
बटालियन द राष्ट्रीय राईफल
9. आईसी-67358एल मेजर प्रदीप सिंह खाती, 6वीं बटालियन द
पैराचूट रेजिमेंट

- | | |
|---|---|
| <p>10. आईसी-68292एम मेजर अनिमेश श्रीवास्तव, इंजीनियर्स कोर/17वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> <p>11. आईसी-69305एल मेजर निमरोडसन मोसाहारि, 17वीं बटालियन द महार रेजिमेंट</p> <p>12. एसएस-41962वाई मेजर त्रिभुवन कांत शर्मा, सेना वायु रक्षा/10वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> <p>13. एसएस-42513डब्ल्यू मेजर सौरभ रामचन्द्र देशपाण्डे, तोपखाना रेजिमेंट/25वीं बटालियन द असम राईफल</p> <p>14. आईसी-68748ए कैप्टन अमन मेहता, 15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट</p> <p>15. आईसी-68878एच कैप्टन असीम गुप्ता, इंजीनियर्स कोर/55वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> <p>16. आईसी-69133एफ कैप्टन कापसे समीर अशोकराव, तोपखाना रेजिमेंट, 6वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> <p>17. एसएस-41850वाई कैप्टन अमोस हुग्यो, तोपखाना रेजिमेंट/42वीं बटालियन द असम राईफल</p> <p>18. एसएस-44249एम कैप्टन मिथिलेश कुमार सिंह, इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स कोर, 2/11वीं बटालियन द गोरखा राईफल</p> <p>19. आईसी-72025एच लेफ्टि. सम्राट घोश, सेना आयुध कोर, 7वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट</p> <p>20. आईसी-72284एल लेफ्टि. निश्चल भारद्वाज, सेना आयुध कोर/19वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट</p> <p>21. जेसी-459379ए सूबेदार धुले रमेश गंगाराम, 26वीं बटालियन द मराठा लाईट इन्फैंट्री</p> <p>22. जेसी-499056ए सूबेदार मोहिन्दर सिंह, सिख रेजिमेंट/6वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> <p>23. जेसी-499444एक्स सूबेदार कश्मीर सिंह, सिख रेजिमेंट/6वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> <p>24. जेसी-273366के नायब सूबेदार गुरदयाल सिंह, तोपखाना रेजिमेंट/217वीं फील्ड रेजिमेंट (मरणोपरांत)</p> <p>25. 4073839एम हवलदार पवार ज्ञानोबा पांडुरंग, मराठा लाईट इन्फैंट्री/17वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> <p>26. 4075364एम हवलदार देवेन्द्र सिंह, 8वीं बटालियन द गढ़वाल राईफल</p> <p>27. 13755792एक्स हवलदार अजय सुब्बा, तीसरी बटालियन द जम्मू एवं कश्मीर राईफल</p> <p>28. 15612160डब्ल्यू-लांस हवलदार संजीव सिंह, ब्रिगे. ऑफ द गाइर्स/21वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> | <p>29. 15485612एम एक्टिंग लांस दफादार विकास कुमार, क्वचित कोर/53वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> <p>30. 2488089एक्स नायक भुपिंदर सिंह, पंजाब रेजिमेंट/22वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> <p>31. 3400413ए नायक हरजिन्द्र सिंह, 13वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट</p> <p>32. 3994415के नायक सतपाल सिंह, 15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट</p> <p>33. 4272784एल नायक सेवक कच्छप, बिहार रेजिमेंट/24वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> <p>34. 2501150एक्स सिपाही करमवीर सिंह, पंजाब रेजिमेंट/22वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> <p>35. 2608805डब्ल्यू सिपाही रोशन बीसी, 19वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट</p> <p>36. 3004195डब्ल्यू सिपाही राजीव सिंह, राजपूत रेजिमेंट/44वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> <p>37. 4085260वाई राइफलमैन अजय सिंह, 8वीं बटालियन द गढ़वाल राईफल</p> <p>38. 10363038पी राइफलमैन अमीत शर्मा, 126वीं इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) जम्मू एवं कश्मीर राईफल (मरणोपरांत)</p> <p>39. 2698239ए ग्रेनेडियर याकुब, द ग्रेनेडियर्स/39वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> <p>40. 2702858एन ग्रेनेडियर अमर चन्द, द ग्रेनेडियर्स/29वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> <p>41. 14444925ए गनर गिन्दर पैक, तोपखाना रेजिमेंट/33वीं फील्ड रेजिमेंट</p> <p>42. 15612686एच गाइर्समैन इमचा तोसी, ब्रिगे. ऑफ द गाइर्स/21वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल</p> |
|---|---|

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 103-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "नौसेना मेडल/नेवी मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:--

1. लेफ्टिनेंट कमांडर सुजीत पाराक्काट मेनन, (05129एफ)
2. लेफ्टिनेंट शैलेश कुमार त्यागी (06273एफ)
3. रमेश कुमार कुम्हार, पीओए (एसीएमडी)(118426ए)

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 104-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, विंग कमांडर सुब्रमन्यम श्रीनिवासन (23773) उड़ान (पायलट) को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "वायुसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 425, दिनांक 21 सितम्बर 2012--राष्ट्रपति, प्रवीण कुमार आई.ओ.एफ.एस. (1992) को दिनांक 25 जून 2012 (पूर्वाह्न) से अगले पांच वर्ष के लिए अर्थात् 24 जून 2017 तक या अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो रक्षा मंत्रालय में निदेशक पद पर नियुक्त करते हैं

के मुरली
अवर सचिव

सं. 426, दिनांक 21 सितम्बर 2012--राष्ट्रपति, कमांडर फनिन्द्र येल्लाप्रागदा (3726-टी) को 15,600-39,100/- रु. एवं ग्रेड वेतन 8,000/- रु. एवं सैन्य सेवा वेतन 6,000/- रु. के वेतनमान में 11 जून, 2012 के पूर्वाह्न से अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें जो भी पहले हो तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए रक्षा मंत्रालय में योजना अधिकारी (रक्षा) के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

टी पी केरकेट्टा
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 427, दिनांक 21 सितम्बर 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से संयुक्त निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :--

के एम पी सिंह, 12 अक्टूबर 1954, 01 अप्रैल 2008
ए के लारोइया, 12 अगस्त 1952, 01 अप्रैल 2010
पूनम गोयला, 20 जुलाई 1959, 01 अप्रैल 2010
आर नटराजन, 15 जुलाई 1954, 07 फरवरी 2012
जी वी सिंह, 30 मई 1953, 07 फरवरी 2012

शंकर सिंह
निदेशक

सेना शाखा

सं. 428, दिनांक 21 सितम्बर 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से उप निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :--

अरविंद, 17 जून 1969, 01 अप्रैल 2007
डी सालाईमरन, 05 जून 1970, 01 अप्रैल 2007
अरविंद बक्शी, 21 सितम्बर 1957, 01 अप्रैल 2008
निधि ओझा, 26 सितम्बर 1972, 01 अप्रैल 2008
अबिनाश कुमार, 16 नवम्बर 1965, 01 अप्रैल 2008
पंकज राजवंशी, 01 मई 1954, 01 अप्रैल 2008
अशोक चक्रपाणि, 14 अप्रैल 1970, 01 अप्रैल 2008

ए के लारोइया
उप मुप्रअ (प्रशा)

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 429, दिनांक 24 सितम्बर 2012--सक्षम प्राधिकारी कुमारी भव्याश्री (जन्मतिथि 25 नवम्बर 1981) को वेतन बैंड-2 में 4,800/- रु. ग्रेड वेतन सहित 9,300-34,800/- रु. के वेतनमान में 02 सितम्बर 2011 से नियमित आधार पर ससेमु सिविल सेवा में अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं

सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखि गई तारीख से दी गई अवधि तक अथवा सेवानिवृत्ति अथवा नियमित पदधारी मिलने तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं :--

आई सी शर्मा, 14 जून 1955, 01 अप्रैल 2011-30 जून 2012

एल वैद्यनाथन, 08 जुलाई 1953, 01 अप्रैल 2011-30 जून 2012

एस सी गर्ग, 03 जुलाई 1955, 01 अप्रैल 2011-30 जून 2012

यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर की गई है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना कोई सूचना दिए समाप्त की जा सकती है

तदर्थ नियुक्ति के आधार पर ये अधिकारी उपर्युक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा इस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता एवं अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएगी

राष्ट्रपति, निम्नलिखित उप निदेशकों की नियुक्ति की अवधि प्रभावी तारीख से उनके नाम के सामने दी गई तारीख अथवा उनकी सेवा निवृत्ति अथवा नियमित पदधारी मिलने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :--

कुंदन कुमार, 17 अक्टूबर 1963, 19 अक्टूबर 2011-18 अप्रैल 2012

अनीता कुमारी, 01 जनवरी 1967, 19 अक्टूबर 2011-18 अप्रैल 2012

रत्नेश कुमार, 15 जनवरी 1975, 19 अक्टूबर 2011-18 अप्रैल 2012

पंकज सिंह सिसोदिया, 03 अगस्त 1974, 11 नवम्बर 2011-18 अप्रैल 2012

अरूण कुमार तिवारी, 20 अगस्त 1971, 19 अक्टूबर 2011-18 अप्रैल 2012

राजेश तिवारी, 30 जून 1961, 01 जुलाई 2011-31 दिसम्बर 2012

एस के मिश्रा, 25 जनवरी 1962, 01 जुलाई 2011-31 दिसम्बर 2012

महेश कुमार सिंह, 25 मार्च 1968, 01 जुलाई 2011-31 दिसम्बर 2012

यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर की गई है एवं प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बगैर सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

तदर्थ नियुक्ति इन अधिकारियों को नियमित आधार पर उपर्युक्त पद के लिए दावा करने का अधिकार नहीं देगी। इस ग्रेड में इनकी वरिष्ठता उस ग्रेड में वरिष्ठता एवं अगले ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएगी

ए के लारोइया
उप मुप्रअ (प्रशा)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 430, दिनांक 24 सितम्बर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

डॉ. वीराधू कल्याणा चक्रवर्ती, वैज्ञानिक 'इ' को रक्षा प्रयोगशाला (डीआरडीएल), हैदराबाद में एक साल की परखावधि पर दिनांक 19 जनवरी 2011 (पूर्वाह्न) से वेतनमान (पे बैंड-4) में 37,400--67,000/- रुपये + ग्रेड पे 8,700/- रुपये में

अंजेश कुमार
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 431, दिनांक 24 सितम्बर 2012--दिनांक 13 अप्रैल 2012 की अधिसूचना सं. ए-19013/9/2007-रक्षा(स्था.1/युप.1) जो गीतांजलि गुप्ता कुन्दा, आईएस (यूटी-96) के पदभार मुक्त होने तथा दिल्ली परिवहन निगम में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पदभार ग्रहण करने से संबंधित है, को रद्द माना जाए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) नई दिल्ली में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप, गीतांजलि गुप्ता कुन्दा, आईएस (यूटी : 96), निदेशक, रक्षा मंत्रालय की सेवाएं 26 अप्रैल 2012 (अपराह्न) से दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं

के मुरली
अवर सचिव

सेना सचिव शाखा

सं. 432, दिनांक 24 सितम्बर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

(वी-00344) ब्रिगे एन एस कनवर, आरवीसी, 03 नवम्बर 2011

ब्रिगे के मूल रैंक में

(आईसी-39998) कर्नल वी के जसवाल, गढ़वाल राईफल, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 जून 2008 से दी जायेगी

(आईसी-40158) कर्नल ए कैथला, वीएसएम, जाट, 07 अगस्त 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जुलाई 2008 से दी जायेगी

ए चन्द्रशेखर
निदेशक/एमएस(एक्स)

थल सेना शाखा

सं. 433, दिनांक 25 सितम्बर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

ग्रुप कैप्टन से एयर कमांडर (व समकक्ष) के पद पर

एम एस बुटोला (एमआर-04993एफ)(एफ-30034), 18 अक्टूबर 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 29 अगस्त 2011 से दी जाती है

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) के पद पर

वी शर्मा (एमआर-06266एच)(एफ-21386टी), 03 नवम्बर 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टीएस) के पद पर

विंग कमांडर जे सी शर्मा (एमआर-05889ए)(एफ-19734आर), 11 अप्रैल 2012

विंग कमांडर एस एस धावला (एमआर-05530वाई)(एफ-18698जी), 01 दिसम्बर 2011

विंग कमांडर एस मिश्रा (एमआर-06308के)(एफ-19339एफ), 07 दिसम्बर 2011

विंग कमांडर के एस राजू (एमआर-06488एक्स)(एफ-19343एच), 09 दिसम्बर 2011

विंग कमांडर दिलीप मलिक (एमआर-06220ए)(एफ-19371एस), 29 जनवरी 2012

यश पांडे
ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 434, दिनांक 25 सितम्बर 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले कर्नल

(डब्ल्यूएस-00106) संध्या यादव, इंजीनियर्स, 11 मार्च 2009 (लेकिन वेतन एवं भत्ता दिनांक 12 सितम्बर 2011 से)

(डब्ल्यूएस-00126) रेनु नैटियाल, एओसी, 26 अगस्त 2009 (लेकिन वेतन एवं भत्ता दिनांक 12 सितम्बर 2011 से)

(डब्ल्यूएस-00130) नागावेनी एन वी, इंजीनियर्स, 26 अगस्त 2009 (लेकिन वेतन एवं भत्ता दिनांक 12 सितम्बर 2011 से)

(डब्ल्यूएस-00134) अनुपमा मुंशी, एएससी, 26 अगस्त 2009 (लेकिन वेतन एवं भत्ता दिनांक 12 सितम्बर 2011 से)

(डब्ल्यूएस-00140) प्रेरणा पंडित, ईन्ट, 26 अगस्त 2009 (लेकिन वेतन एवं भत्ता दिनांक 12 सितम्बर 2011 से)

(डब्ल्यूएस-00143) सीमा सिंह, एओसी, 26 अगस्त 2009 (लेकिन वेतन एवं भत्ता दिनांक 12 सितम्बर 2011 से)

(डब्ल्यूएस-00153) रीटा कुमारी, एओसी, 09 मार्च 2010 (लेकिन वेतन एवं भत्ता दिनांक 12 सितम्बर 2011 से)

प्रभात रॉस
उप निदेशक
एमएस 8सी

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 435, दिनांक 25 सितम्बर 2012--राष्ट्रपति, स से मु सिविल सेवा के टी पी श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक (समूह 'क' राजपत्रित) (जन्म तिथि : 09 नवम्बर 1955) को वेतन बैंड-IV में 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रु. के वेतनमान में 07 दिसंबर 2011 से नियमित आधार पर निदेशक (समूह 'क' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति प्रदान करते हैं

राष्ट्रपति, स से मु सिविल सेवा के महेश कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) (जन्म तिथि : 25 मार्च 1968) को, वेतन बैंड-III में 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--34,800/- रु. के वेतनमान में 31 दिसंबर 2011 से 18 अप्रैल 2012 तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, उप निदेशक (समूह 'क' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति प्रदान करते हैं

यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर है एवं प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी मिलने पर बगैर सूचना दिए समाप्त की जा सकती है

उप निदेशक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा इस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता एवं अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएगी

राष्ट्रपति, स से मु सिविल सेवा के अरुण कुमार तिवारी, अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) (जन्म तिथि : 20 अगस्त 1971) को वेतन बैंड-III में 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--34,800/- रु. के वेतनमान में 06 अक्टूबर 2011 से 18 अक्टूबर 2011 तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, उप निदेशक (समूह 'क' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति प्रदान करते हैं

यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर है एवं प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी मिलने पर बगैर सूचना दिए समाप्त की जा सकती है

उप निदेशक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा इस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता एवं अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएगी

सक्षम प्राधिकारी स से मु सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों (समूह 'ख' अराजपत्रित) को एल डी सी ई परीक्षा के आधार पर उनके नाम के सामने लिखी तारीख से वेतन बैंड-2 में 4,800/- रु. ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

संजय कुमार झा, 28 फरवरी 1973, 2006, 01 अक्टूबर 2011

शैलेन्द्र कुमार मिश्रा, 01 मार्च 1976, 2006, 01 अक्टूबर 2011

आर सी साहू, 13 जून 1973, 2006, 01 जनवरी 2009

ए वी कमल, 03 जून 1954, 2007, 01 अक्टूबर 2011

अनुराधा मित्रा, 29 दिसम्बर 1956, 2008, 01 अक्टूबर 2011

पी जे जॉन, 16 नवम्बर 1955, 2008, 01 अक्टूबर 2011

अशोक कुमार, 02 जुलाई 1969, 2008, 12 अगस्त 2008

सक्षम प्राधिकारी स से मु सिविल सेवा के सुखबीर सिंह, (जन्म तिथि : 19.08.1954) सहायक (समूह 'ख' अराजपत्रित) को वेतन बैंड-2 में 4,800/- रु. ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रु. के वेतनमान में 11 जुलाई 2011 से 10 जुलाई 2012 तक अथवा सेवानिवृत्ति अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति प्रदान करते हैं।

तदर्थ आधार पर प्रदान की गई नियुक्ति इन्हें नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार नहीं देगी।

अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा इस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता एवं अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएगी।

ए के लारोइया
उप मुप्रअ (प्रशा)

थल सेना शाखा

सं. 436, दिनांक 25 सितम्बर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भापकर बालु हरिचंद्र (सं. 2788195पी अब जेसी-460450पी), 26 दिसम्बर 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार किरन पाटील (सं. 2789090एक्स अब जेसी-460451एक्स), 09 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार जॉड गणेश किशनराव (सं. 2788587एच अब जेसी-460452ए), 30 दिसम्बर 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार शेक बाजी (सं. 2789791एन अब जेसी-460453एच), 24 दिसम्बर 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार पाटील प्रकाश नारायण (सं. 2787598एच अब जेसी-460454एल), 03 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार जोरे बापु भागोजी (सं. 2789018एफ अब जेसी-460455एन), 26 दिसम्बर 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार कोकटे अरुन नामदेव (सं. 2789008एक्स अब जेसी-460456डब्ल्यू), 30 दिसम्बर 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार सकपाल नारायण गणपत (सं. 2789210एल अब जेसी-460457वाई), 02 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार गायकवाड विजयकुमार सुबरव (सं. 2789832एम अब जेसी-460458एफ), 30 दिसम्बर 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार बालु गंगाराम दाबेकर (सं. 2788249एल अब जेसी-460459के), 01 जनवरी 2012

हवलदार ताणाजी (सं. 2790156पी अब जेसी-460460वाई), 01 जनवरी 2012

हवलदार खेवले रजेश जिंजर (सं. 2790562पी अब जेसी-460461एफ), 01 जनवरी 2012

हवलदार घुले मुकुंद बबन (सं. 2790195एन अब जेसी-460462के), 02 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार भोसले माहादेव प्रतापराव (सं. 2786396पी अब जेसी-460463एम), 21 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार मोकाशि मोहन आप्पासो (सं. 2788385एफ अब जेसी-460464पी), 01 जनवरी 2012

हवलदार शिंदे दत्ताराम पांडुरंग (सं. 2789309एफ अब जेसी-460465एक्स), 03 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार गुंजे हिराचंद भुजंगराव (सं. 2789279पी अब जेसी-460466ए), 01 जनवरी 2012

हवलदार चौगुले उत्तम भुजिंगा (सं. 2788012एन अब जेसी-460467एच), 02 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार कटवारे संजय बलिराम (सं. 2788722एल अब जेसी-460468एल), 17 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार तेली रमेश शंकर (सं. 2791172वाई अब जेसी-460491वाई), 24 फरवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार पाटील नंदकुमार सदाबा (सं. 2789745वाई अब जेसी-460492एफ), 05 मार्च 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार कसालकर नामदेव वसंत (सं. 2791228ए अब जेसी-460493के), 01 मार्च 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार चांदेकर जयवंत बाबु (सं. 2788985के अब जेसी-460494एम), 05 मार्च 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार खोटेले घनशाम शालिकराम (सं. 2790200एन अब जेसी-460495पी), 29 फरवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार रमेश देसाई (सं. 2787042वाई अब जेसी-460496एक्स), 05 मार्च 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

हवलदार रविंद्रा (सं. 2788254डब्ल्यू अब जेसी-460497ए), 15 मार्च 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

हवलदार दिवेकर ज्ञानदेव रतन (सं. 2787551एक्स अब जेसी-460480एम), 18 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार महाले बालासाहेब अनंदा (सं. 2789009ए अब जेसी-460481पी), 27 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार कदम नरेश भिक्कु (सं. 2789161एन अब जेसी-460482एक्स), 26 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार भगत चंद्रकांत लक्ष्मणा (सं. 2789180वाई अब जेसी-460483ए), 12 फरवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार नालबंद श्यामीर (सं. 2790484एच अब जेसी-460484एच), 18 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार मंडलिक नाना असाराम (सं. 2789364एक्स अब जेसी-460485एल), 25 फरवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार पाटील मारुती जानबा (सं. 2789042एक्स अब जेसी-460486एन), 05 मार्च 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार भोसले सुरेंद्र मारुती (सं. 2791217एन अब जेसी-460487डब्ल्यू), 18 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार ठूबे राजु सोमनाथ (सं. 2790329एफ अब जेसी-460488वाई), 01 मार्च 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार शिंदे तात्यासाहेब हिंदुराव (सं. 2789740ए अब जेसी-460489एफ), 10 फरवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार कुरंदले गेनभाऊ नामदेव (सं. 2793073पी अब जेसी-460490डब्ल्यू), 02 मार्च 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद मोकिम (सं. 2790284एम अब जेसी-460469एन), 03 फरवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार जाधव चंद्रशेखर पार्वती (सं. 2791667एल अब जेसी-460470एच), 14 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार भोसले शाहुराज नारायण (सं. 2790321पी अब जेसी-460471एल), 24 दिसम्बर 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार विठल लक्ष्मण चण्णे वाड्कर (सं. 2788299डब्ल्यू अब जेसी-460472एन), 21 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार महम्मद रफी उल्ला (सं. 2788754एन अब जेसी-460473डब्ल्यू), 21 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार सालुंखे सतीश सखाराम (सं. 2789319एल अब जेसी-460474वाई), 31 जनवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार कदम प्रदिप नामदेव (सं. 2787649एल अब जेसी-460475एफ), 01 फरवरी 2012

हवलदार विकास पवार (सं. 2788857एम अब जेसी-460476के), 01 फरवरी 2012

हवलदार कयापुरे रमेश आण्णाप्पा (सं. 2788408एक्स अब जेसी-460477एम), 01 फरवरी 2012

हवलदार कनकनवाडी दुरंदुंडी ईरप्पा (सं. 2785779पी अब जेसी-460478पी), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक (एसडी) के रैंक में

हवलदार लिपिक (एसडी) निरमल कुमार गिरी (सं. 2786295एफ अब जेसी-460479एक्स), 03 फरवरी 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 फरवरी 2012 से दी जाती है)

कुमाँऊ रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार सुभाष चन्दर (सं. 4184534एफ अब जेसी-541015ए), 21 दिसम्बर 2011/04 दिसम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 04 दिसम्बर 2011 से दी गई है)

हवलदार देवेन्द्र कुमार (सं. 4184903एन अब जेसी-541016एच), 24 दिसम्बर 2011/08 दिसम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 08 दिसम्बर 2011 से दी गई है)

हवलदार नैन सिंह (सं. 4183294एच अब जेसी-541017एल), 01 जनवरी 2012

हवलदार जमन सिंह (सं. 4182695एल अब जेसी-541018एन), 01 जनवरी 2012

हवलदार नारायण दत्त (सं. 4184004एम अब जेसी-541019डब्ल्यू), 01 जनवरी 2012

हवलदार राजीव कुमार (सं. 4184331एक्स अब जेसी-541020एल), 01 जनवरी 2012

हवलदार कुन्दन सिंह बोहरा (सं. 4182654एफ अब जेसी-541021एन), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2012 से दी गई है)

हवलदार उमाकान्त द्विवेदी (सं. 4183745एक्स अब जेसी-541022डब्ल्यू), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2012 से दी गई है)

हवलदार पुष्कर सिंह (सं. 4183820डब्ल्यू अब जेसी-541023वाई), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2012 से दी गई है)

हवलदार देवकी नन्दन (सं. 4183824एम अब जेसी-541024एफ), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2012 से दी गई है)

नागा रेजिमेंट

हवलदार नोकसुचई (सं. 14702753एन अब जेसी-590295एच), 12 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2011 से दी गई है)

हवलदार भूपेन्द्र सिंह (सं. 14702200एक्स अब जेसी-590296एल), 14 दिसम्बर 2011/15 नवम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 15 नवम्बर 2011 से दी गई है)

हवलदार शोहपु कोम (सं. 14702576वाई अब जेसी-590297एन), 08 दिसम्बर 2011/15 नवम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 15 नवम्बर 2011 से दी गई है)

हवलदार दलजीत सिंह (सं. 14702203एल अब जेसी-590298डब्ल्यू), 03 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2011 से दी गई है)

हवलदार गुना नन्द (सं. 14702204एन अब जेसी-590299वाई), 20 दिसम्बर 2011

हवलदार सुरेन्द्र चन्द (सं. 4182655के अब जेसी-541025के), 13 जनवरी 2012/06 दिसम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 06 दिसम्बर 2011 से दी गई है)

हवलदार श्री किशन यादव (सं. 4183465के अब जेसी-541026एम),
04 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2012 से दी गई है)

हवलदार हयात सिंह (सं. 4183166एल अब जेसी-541027पी),
01 जनवरी 2012

हवलदार गोविन्द सिंह रावत (सं. 4183478एफ अब जेसी-541028एक्स), 01 जनवरी 2012

हवलदार विजय कुमार (सं. 4195126डब्ल्यू अब जेसी-541029ए),
04 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2012 से दी गई है)

हवलदार प्रकाश सिंह (सं. 4182516ए अब जेसी-541030पी),
05 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2012 से दी गई है)

हवलदार विकास प्रसाद यादव (सं. 4182196डब्ल्यू अब जेसी-541031एक्स), 01 जनवरी 2012

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं. 4182622वाई अब जेसी-541032ए),
01 जनवरी 2012

हवलदार घनश्याम दत्त यादव (सं. 4181787एल अब जेसी-541033एच),
01 जनवरी 2012

हवलदार खस्यी बल्लभ (सं. 4181675एल अब जेसी-541034एल),
08 फरवरी 2012/20 जनवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 20 जनवरी 2012 से दी गई है)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 4184887एफ अब जेसी-541035एन),
01 फरवरी 2012

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 4182524वाई अब जेसी-541036डब्ल्यू),
01 फरवरी 2012

हवलदार मुनेन्द्र पाल सिंह (सं. 13688108पी अब जेसी-541037वाई),
01 फरवरी 2012

हवलदार जगदीश राम (सं. 4183222वाई अब जेसी-541038एफ),
01 फरवरी 2012

हवलदार के मोहेन्द्रो कोम (सं. 14702835डब्ल्यू अब जेसी-590300एच), 21 जनवरी 2012/16 दिसम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 16 दिसम्बर 2011 से दी गई है)

हवलदार देवेन्द्र सिंह बिष्ट (सं. 4182391एन अब जेसी-590301एल),
21 जनवरी 2012/29 दिसम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 29 दिसम्बर 2011 से दी गई है)

हवलदार हरी सिंह माजीला (सं. 4181243डब्ल्यू अब जेसी-590302एन), 21 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2012 से दी गई है)

हवलदार पी हेसो माओ (सं. 14702672एन अब जेसी-590303डब्ल्यू),
07 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2012 से दी गई है)

हवलदार सुदेश कुमार (सं. 14702434एफ अब जेसी-590304वाई),
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2012 से दी गई है)

हवलदार पी एस शेलशंग (सं. 14702689एफ अब जेसी-590305एफ),
01 फरवरी 2012/13 जनवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 13 जनवरी 2012 से दी गई है)

हवलदार सूरबीर सिंह गुसाई (सं. 14702436एम अब जेसी-590306के),
01 फरवरी 2012

हवलदार भोला दत्त (सं. 14702516एल अब जेसी-590307एम),
01 फरवरी 2012

हवलदार प्रवीण कुमार (सं. 14702520एम अब जेसी-590308पी),
01 फरवरी 2012

हवलदार गणेश सिंह (सं. 14702691वाई अब जेसी-590309एक्स),
01 फरवरी 2012

हवलदार शेर सिंह (सं. 4181043ए अब जेसी-541039के),
01 दिसम्बर 2011

हवलदार राजा सिंह (सं. 4182434एक्स अब जेसी-541040वाई),
08 फरवरी 2012/17 जनवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 17 जनवरी 2012 से दी गई है)

हवलदार प्रमोद सिंह (सं. 4183423एक्स अब जेसी-541041एफ),
01 फरवरी 2012

हवलदार बालम सिंह बिष्ट (सं. 4182868एक्स अब जेसी-541042के), 03 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2012 से दी गई है)

हवलदार दान सिंह (सं. 4181050डब्ल्यू अब जेसी-541043एम),
01 फरवरी 2012

हवलदार पिताम्बर कापड़ी (सं. 4184146के अब जेसी-541044पी),
01 फरवरी 2012

हवलदार सुन्दर सिंह (सं. 4182857एल अब जेसी-541045एक्स),
01 फरवरी 2012

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 4183852वाई अब जेसी-541046ए),
15 फरवरी 2012/11 जनवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 11 जनवरी 2012 से दी गई है)

हवलदार रमेश सिंह (सं. 4183546के अब जेसी-590310एम),
11 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 फरवरी 2012 से दी गई है)

9 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुरेंद्र बिक्रम साही (सं. 5846973एल अब
जेसी-630005एल), 03 दिसम्बर 2011/20 नवम्बर 2011 *

हवलदार (क्लर्क) यदागिरी तात्प्या नायडू (सं. 5847093एफ अब
जेसी-630006एन), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार केशर बहादुर थापा (सं. 5846916के अब जेसी-
630007डब्ल्यू), 03 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार नेत्र बहादुर क्षेत्री (सं. 5846731एच अब जेसी-630008वाई),
01 दिसम्बर 2011

हवलदार भीम जंग पांडे (सं. 5847258पी अब जेसी-630009एफ),
01 दिसम्बर 2011

हवलदार देवेन्द्र बिक्रम मल्ल (सं. 5847260एम अब जेसी-
630010डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार ओम बहादुर खत्री (सं. 5847128एम अब जेसी-
630011वाई), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार चंद्र किरन शाही (सं. 5847218एन अब जेसी-630012एफ),
01 दिसम्बर 2011

हवलदार कृष्णा बहादुर खडका (सं. 5847408ए अब जेसी-
630013के), 18 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार अमर सिंह बसनेत (सं. 5847723डब्ल्यू अब जेसी-
630014एम), 18 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार तेजिंद्र बहादुर खडका (सं. 5847415डब्ल्यू अब जेसी-
630015पी), 25 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार तुल बहादुर थापा (सं. 5846734डब्ल्यू अब जेसी-
630016एक्स), 15 दिसम्बर 2011/02 दिसम्बर 2011 *

हवलदार इंद्र बहादुर अधिकारी (सं. 5846784एफ अब जेसी-
630017ए), 17 दिसम्बर 2011/02 दिसम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
ज्येष्ठता दी जायेगी)

हवलदार प्रेम बहादुर खडका (सं. 5847266एन अब जेसी-
630018एच), 01 जनवरी 2012/21 दिसम्बर 2011 *

हवलदार प्रताप मल्ल (सं. 5846918पी अब जेसी-630019एल),
03 जनवरी 2012/22 दिसम्बर 2011 *

हवलदार राम बहादुर शाही (सं. 5846931वाई अब जेसी-630020ए),
01 जनवरी 2012

हवलदार अर्जुन बहादुर कार्की (सं. 5846908एल अब जेसी-
630021एच), 01 जनवरी 2012

हवलदार कृष्णा कुमार चंद (सं. 5847532एफ अब जेसी-
630022एल), 01 जनवरी 2012

हवलदार जगत बहादुर खान ठकुरी (सं. 5847741वाई अब जेसी-
630023एन), 05 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार खिम बहादुर मल्ल (सं. 5847269एफ अब
जेसी-630024डब्ल्यू), 09 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार गोविंद बहादुर खत्री (सं. 5847267डब्ल्यू अब जेसी-
630025वाई), 01 जनवरी 2012

हवलदार योब राज क्षेत्री (सं. 5847358ए अब जेसी-630026एफ),
01 जनवरी 2012

हवलदार दुर्गा बहादुर के सी (सं. 5847421के अब जेसी-630027के),
01 जनवरी 2012

हवलदार महादव शाह (सं. 5847435के अब जेसी-630028एम),
01 जनवरी 2012

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
ज्येष्ठता दी जायेगी)

हवलदार दुर्गा बहादुर खत्री (सं. 5846938एच अब जेसी-630029पी),
01 फरवरी 2012

हवलदार दीपक खडका (सं. 5847344ए अब जेसी-630030के),
01 फरवरी 2012

हवलदार खडक बहादुर कुवर (सं. 5847272एफ अब
जेसी-630031एम), 01 फरवरी 2012

हवलदार लक्ष्म बहादुर अधिकारी (सं. 5847276एक्स अब
जेसी-630032पी), 01 फरवरी 2012

हवलदार किशन क्षेत्री (सं. 5847371के अब जेसी-630033एक्स),
05 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार कृष्णा बहादुर थापा (सं. 5847436एम अब
जेसी-630034ए), 01 फरवरी 2012

हवलदार मिन बहादुर के सी (सं. 5847445एन अब जेसी-630035एच), 01 फरवरी 2012

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

गढ़वाल राइफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हीरा सिंह (सं. 4073073एन अब जेसी-531092एफ), 01 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 मई 2011 से दी जाती है)

हवलदार महिपाल सिंह रावत (सं. 4070487पी अब जेसी-531093के), 13 नवम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार हयात सिंह भंडारी (सं. 4070595वाई अब जेसी-531094एम), 21 दिसम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार नन्दन सिंह रावत (सं. 3391641वाई अब जेसी-531095पी), 03 अक्टूबर 2011

हवलदार द्वारिका प्रसाद मनोरी (सं. 4070297एच अब जेसी-531096एक्स), 10 अक्टूबर 2011

हवलदार होशियार सिंह सजवाण (सं. 4070660एन अब जेसी-531097ए), 21 दिसम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 4071324एन अब जेसी-531098एच), 20 नवम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार रूप सिंह रावत (सं. 4070615एफ अब जेसी-531099एल), 18 दिसम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार रघुबीर सिंह (सं. 4071664डब्ल्यू अब जेसी-531100पी), 08 दिसम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार नथा सिंह (सं. 4069729ए अब जेसी-531101एक्स), 03 दिसम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार बीर सिंह (सं. 4070603एम अब जेसी-531102ए), 13 दिसम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार प्रदीप सिंह (सं. 4070658डब्ल्यू अब जेसी-531103एच), 01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार कैलाश सिंह (सं. 4070680एफ अब जेसी-531104एल), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार यशबीर सिंह (सं. 4070781पी अब जेसी-531105एन), 21 दिसम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार विरेन्द्र (सं. 4070902एल अब जेसी-531106डब्ल्यू), 21 दिसम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार मनबर सिंह (सं. 4070659वाई अब जेसी-531107वाई), 21 दिसम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार पान सिंह, शौर्य चक्र, सेना मेडल (सं. 4070872वाई अब जेसी-531108एफ), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार दिनेश कुमार रतूड़ी (सं. 4071364पी अब जेसी-531109के), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार अनिल कुमार (सं. 4070940एफ अब जेसी-531110वाई), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार महाबीर प्रसाद (सं. 4070284एल अब जेसी-531032एम), 01 नवम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

हवलदार दर्शन सिंह बिष्ट (सं. 4071614एल अब जेसी-531033पी), 04 अगस्त 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद पलीवाल (सं. 4071152के अब जेसी-531036एच), 01 सितम्बर 2011

हवलदार महाबीर सिंह (सं. 4070393एक्स अब जेसी-531037एल), 01 सितम्बर 2011

हवलदार शेखर सिंह (सं. 4069832एल अब जेसी-531038एन), 01 सितम्बर 2011

हवलदार लक्ष्मण सिंह नेगी (सं. 4069834डब्ल्यू अब जेसी-531039डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2011

हवलदार कैलाश चन्द्र (सं. 4070179पी अब जेसी-531040एल), 01 सितम्बर 2011

हवलदार दिनेश कुमार (सं. 4071927के अब जेसी-531041एन), 01 सितम्बर 2011

हवलदार अनिल कुमार, सेना मेडल (सं. 4073380एल अब जेसी-531042डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2011

हवलदार कलम सिंह कन्डारी (सं. 4070046वाई अब जेसी-531043वाई), 01 सितम्बर 2011

हवलदार जसवन्त सिंह (सं. 4073458एल अब जेसी-531044एफ), 01 सितम्बर 2011

हवलदार मनेन्द्र प्रसाद (सं. 4071902एक्स अब जेसी-531045के), 01 सितम्बर 2011

हवलदार नरेन्द्र सिंह रावत (सं. 2886238पी अब जेसी-531046एम), 01 सितम्बर 2011

हवलदार रविन्द्र सिंह (सं. 4071230डब्ल्यू अब जेसी-531047पी), 26 सितम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार मकर सिंह पंवार (सं. 4070734एक्स अब जेसी-531048एक्स), 01 नवम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार विनोद कुमार (सं. 4070833ए अब जेसी-531049ए), 01 सितम्बर 2011

हवलदार बेलम सिंह (सं. 4071667के अब जेसी-531050पी), 01 सितम्बर 2011

हवलदार प्रभु दयाल सिंह (सं. 4071498एन अब जेसी-531051एक्स), 12 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार जगमोहन सिंह (सं. 4069975एल अब जेसी-531052ए), 03 सितम्बर 2011

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 4070208वाई अब जेसी-531053एच), 03 सितम्बर 2011

हवलदार रमेश सिंह (सं. 4070225वाई अब जेसी-531054एल), 03 सितम्बर 2011

हवलदार सोहन सिंह (सं. 4070469एम अब जेसी-531055एन), 01 नवम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार भुवनेश्वर प्रसाद (सं. 4070524एक्स अब जेसी-531056डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार प्रेम सिंह रावत (सं. 4069848डब्ल्यू अब जेसी-531057वाई), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 4069855एम अब जेसी-531058एफ), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार रघुबीर सिंह (सं. 4069857एक्स अब जेसी-531059के), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार कुशल सिंह (सं. 4069858ए अब जेसी-531060वाई), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार गुमान सिंह (सं. 4070361पी अब जेसी-531061एफ), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 4070362एक्स अब जेसी-531062के), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 4070546डब्ल्यू अब जेसी-531063एम), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार सोबन सिंह (सं. 4070276एम अब जेसी-531064पी), 12 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार अमर सिंह (सं. 4070977एच अब जेसी-531065एक्स), 25 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 4071197के अब जेसी-531066ए), 25 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार रघुबीर सिंह (सं. 4071266पी अब जेसी-531067एच),
09 नवम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार जगदम्बा प्रसाद नोटियाल (सं. 4071256एल अब
जेसी-531068एल), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार सतीश चन्द्र (सं. 4070357एम अब जेसी-531069एन),
12 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार दिगम्बर प्रसाद (सं. 4071272एच अब जेसी-531070एच),
25 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार मदन सिंह (सं. 4071293वाई अब जेसी-531071एल),
25 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार रमेश चन्द्र सिंह (सं. 13618058एक्स अब जेसी-
531072एन), 07 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार ओमपाल सिंह (सं. 4070436एफ अब जेसी-531073डब्ल्यू),
29 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 4073525एल अब जेसी-531074वाई),
13 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 4070547वाई अब जेसी-531075एफ),
29 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार कमल सिंह (सं. 4070499के अब जेसी-531076के),
12 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार पदम सिंह (सं. 4070057एल अब जेसी-531077एम),
07 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार दिवान सिंह (सं. 4070069ए अब जेसी-531078पी),
07 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 4072311एच अब जेसी-531079एक्स),
01 अक्टूबर 2011

हवलदार मोहन चन्द्र (सं. 4072334के अब जेसी-531080एम),
01 अक्टूबर 2011

हवलदार चन्द्र सिंह (सं. 3183070एम अब जेसी-531081पी),
20 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार भुपेन्द्र सिंह (सं. 4070664के अब जेसी-531082एक्स),
24 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार सौन सिंह (सं. 4070668ए अब जेसी-531083ए),
24 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार कुन्दन सिंह (सं. 4070758एफ अब जेसी-531084एच),
14 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार जीतपाल सिंह (सं. 4070882एच अब जेसी-531085एल),
24 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार भरत सिंह (सं. 4070905वाई अब जेसी-531086एन),
14 अक्टूबर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 4069819एफ अब जेसी-531087डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2011

हवलदार प्रेम सिंह राणा (सं. 4071307एन अब जेसी-531088वाई),
09 नवम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 4071433ए अब जेसी-531089एफ),
01 नवम्बर 2011

हवलदार रवीन्द्र सिंह (सं. 4070369एफ अब जेसी-531090डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2011

हवलदार परम शिव प्रभाकर (सं. 4071021वाई अब
जेसी-531091वाई), 12 नवम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) मदन गोपाल (सं. 4070424एम अब
जेसी-531034एक्स), 01 सितम्बर 2011

हवलदार (लिपिक) भगवती प्रसाद पन्त (सं. 4071637एम अब
जेसी-531035ए), 02 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 4071332एम अब जेसी-531111एफ),
04 जनवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार धर्मपाल सिंह रावत (सं. 4073632एम अब जेसी-531112के),
09 जनवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 22 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार अनिल कुमार (सं. 4070597के अब जेसी-531113एम),
30 जनवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार तेजेन्द्र सिंह (सं. 4071889वाई अब जेसी-531114पी),
18 अक्टूबर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार दलीप सिंह (सं. 4072326एल अब जेसी-531115एक्स),
01 दिसम्बर 2011

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 4070448डब्ल्यू अब जेसी-531116ए),
13 दिसम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह कैतूरा (सं. 4070958एक्स अब
जेसी-531117एच), 24 दिसम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार ठाकुर सिंह (सं. 4071018वाई अब जेसी-531118एल),
24 दिसम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार केदार दत्त (सं. 4070795पी अब जेसी-531119एन),
01 फरवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार मदन सिंह (सं. 4071210एच अब जेसी-531120एच),
01 फरवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार रमेश दत्त (सं. 4071423डब्ल्यू अब जेसी-531121एल),
01 फरवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार गजेन्द्र सिंह (सं. 4071731डब्ल्यू अब जेसी-531122एन),
01 फरवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार बुद्धि प्रसाद सती (सं. 4071746वाई अब
जेसी-531123डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार कुंवर सिंह (सं. 4071561एक्स अब जेसी-531124वाई),
01 फरवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 4071761एन अब जेसी-531125एफ),
01 फरवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 4071835एक्स अब जेसी-531126के),
01 फरवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार प्रीतम सिंह (सं. 4071923एन अब जेसी-531127एम),
01 फरवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार शिव चरण (सं. 3182883डब्ल्यू अब जेसी-531128पी),
01 जनवरी 2012

हवलदार गौतम सिंह (सं. 4069731एक्स अब जेसी-531129एक्स),
01 जनवरी 2012

हवलदार मंगल सिंह (सं. 4269015डब्ल्यू अब जेसी-531130एम),
01 जनवरी 2012

हवलदार अमोद कुमार (सं. 3183268एल अब जेसी-531131पी),
01 जनवरी 2012

हवलदार होशियार सिंह रावत (सं. 4070949डब्ल्यू अब जेसी-531132एक्स), 01 जनवरी 2012

हवलदार साबर सिंह (सं. 4070432एल अब जेसी-531133ए),
01 जनवरी 2012

हवलदार गीता सिंह (सं. 4070463एल अब जेसी-531134एच),
15 जनवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार रमेश चन्द्र सिंह (सं. 4070808एफ अब जेसी-531135एल), 01 जनवरी 2012

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं. 4071022एफ अब जेसी-531136एन),
01 जनवरी 2012

हवलदार बृजमोहन सिंह (सं. 4070957पी अब जेसी-531137डब्ल्यू),
01 जनवरी 2012

हवलदार जयपाल सिंह रावत (सं. 4071115डब्ल्यू अब जेसी-531138वाई), 01 जनवरी 2012

हवलदार योगेश (सं. 4071401एक्स अब जेसी-531139एफ),
01 जनवरी 2012

हवलदार होशियार सिंह रावत (सं. 4071898ए अब जेसी-531140डब्ल्यू), 04 जनवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार विनोद सिंह (सं. 4072007वाई अब जेसी-531140वाई),
04 जनवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार ताजवर सिंह (सं. 4072189एक्स अब जेसी-531142एफ),
03 जनवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 4071473एफ अब जेसी-531143के),
01 जनवरी 2012

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 4072441एल अब जेसी-531144एम),
01 जनवरी 2012

हवलदार राकेश नेगी (सं. 4072228एल अब जेसी-531145पी),
07 फरवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 4072230एच अब जेसी-531146एक्स),
04 जनवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 4072346वाई अब जेसी-531147ए),
04 जनवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार चन्द्र मोहन सिंह (सं. 4072046एक्स अब जेसी-531148एच), 01 फरवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार जगमोहन सिंह नेगी (सं. 4071045एच अब जेसी-531149एल), 03 जनवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार कलपाई सिंह (सं. 4071254ए अब जेसी-531150ए),
09 फरवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार हर्ष सिंह (सं. 4071414पी अब जेसी-531153एन),
09 फरवरी 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक एसडी) के रैंक में

हवलदार (लिपिक एसडी) हरीश चन्द्र शर्मा (सं. 4071676एल अब जेसी-531151एच), 01 फरवरी 2012

हवलदार (लिपिक एसडी) पाटिल प्रकाश शिवाजी (सं. 4071955डब्ल्यू अब जेसी-531152एल), 15 फरवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार (लिपिक एसडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

8 जी आर

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार पत बहादुर थापा (सं. 5753007एम अब जेसी-623983के), 09 जनवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाएगी)

हवलदार गम बहादुर थापा (सं. 5752249एच अब जेसी-623984एम), 01 जनवरी 2012

हवलदार रन बहादुर राना (सं. 5752304एन अब जेसी-623985पी), 07 फरवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाएगी)

हवलदार यम बहादुर थापा (सं. 5752319डब्ल्यू अब जेसी-623986एक्स), 06 फरवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाएगी)

हवलदार जित बहादुर राना (सं. 5752269डब्ल्यू अब जेसी-623987ए), 01 फरवरी 2012

हवलदार रन बहादुर थापा (सं. 5752212एफ अब जेसी-623978वाई), 01 नवम्बर 2011

हवलदार चन्द्र बहादुर जीसी (सं. 5752415एल अब जेसी-623979एफ), 01 नवम्बर 2011

हवलदार मेख बहादुर गुरुंग (सं. 5752464एन अब जेसी-623980डब्ल्यू), 25 दिसम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाएगी)

हवलदार गणेश बहादुर थापा (सं. 5751749एन अब जेसी-623981वाई), 01 जनवरी 2012

हवलदार धन बहादुर छेत्री (सं. 5752931ए अब जेसी-623982एफ), 09 जनवरी 2012 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाएगी)

सुभ्रत करमाकर
अवर सचिव

थल सेना विभाग

(एमजीओ) ईएमई कर्मिक

सं. 437, दिनांक 26 सितम्बर 2012--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

हवलदार से नायब सूबेदार टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में

एम पेरूमल (सं. 14616799एम अब जेसी-766917के), 01 मई 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार आर्माइन्ट टेक (एफडी) के रैंक में

कैलाश चन्द्र जोशी (सं. 14594934एम अब जेसी-766920के), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

नवीन कुमार चौधरी (सं. 14595112एफ अब जेसी-767012एन), 01 मई 2012

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो इलैक्ट बी व्हीकल के रैंक में

नरेन्द्र सिंह (सं. 14597117वाई अब जेसी-767009एन), 25 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार वैलडर के रैंक में

बाबू सिंह (सं. 14594530के अब जेसी-767014वाई), 01 मई 2012

राज कुमार (सं. 14596474पी अब जेसी-767013डब्ल्यू), 01 मई 2012

दुलाई पौल (सं. 14596993एक्स अब जेसी-767048एम), 02 मई 2012/01 मई 2012 *

बनवारी सिंह सिकरवार (सं. 14597238ए अब जेसी-767049पी), 03 मई 2012/01 मई 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

सुर्यवंशी वसंत राव (सं. 14595189के अब जेसी-767050के), 10 मई 2012/01 मई 2012 *

विजय शंकर सिंह (सं. 14596008ए अब जेसी-767039एल), 01 मई 2012

हवलदार से नायब सूबेदार टेक अप्टो इलैक्ट के रैंक में

नीयाश निशान एम (सं. 14636906के अब जेसी-767073एल), 07 मई 2012/01 मई 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार पेंटर और डेकोरेटर के रैंक में

राजेन्द्र सिंह बरगाली (सं. 14617062के अब जेसी-766921एम), 01 अप्रैल 2012

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

विरेन्द्र सिंह सेन (सं. 14620037डब्ल्यू अब जेसी-765659एच), 26 अप्रैल 2012/01 नवम्बर 2010 *

वंका भास्कर राव (सं. 14622420एन अब जेसी-765792एल),
11 अप्रैल 2012/01 फरवरी 2011 *

मृतुन्जय पंडीत (सं. 14622657एल अब जेसी-765797के),
11 अप्रैल 2012/01 फरवरी 2011 *

त्रिजेश प्रसाद यादव (सं. 14623183एफ अब जेसी-766989एन),
03 मई 2012/30 अक्टूबर 2011 *

भोसले वी के (सं. 14624853के अब जेसी-766993डब्ल्यू),
24 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

राज कुमार (सं. 14624542डब्ल्यू अब जेसी-766994वाई),
24 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

कमल सिंह मूकती (सं. 14624623डब्ल्यू अब जेसी-766997एम),
19 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

मोहन प्रसाद (सं. 14624575एफ अब जेसी-766999एक्स),
23 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

राजेन्द्र सिंह (सं. 14624879वाई अब जेसी-767001एफ), 30 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में

राजेश जोशी (सं. 14627353एक्स अब जेसी-766983एम),
10 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

नीलाते गोरक वसंत (सं. 14631061एम अब जेसी-767074एन),
15 मई 2012/01 मई 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी)
के रैंक में

श्याम करण सिंह (सं. 14594958डब्ल्यू अब जेसी-766895डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2012

संजय देव (सं. 14598248डब्ल्यू अब जेसी-767016के), 25 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

राज कुमार मौर्या (सं. 14598225पी अब जेसी-767051एम),
14 मई 2012/01 अप्रैल 2012 *

जगत सिंह (सं. 14598601एक्स अब जेसी-767075डब्ल्यू), 18 मई
2012/01 मई 2012 *

जहन सिंह राठौर (सं. 14599028वाई अब जेसी-767055एच),
16 मई 2012/01 मई 2012 *

जधव विजय भीम राव (सं. 14599946एन अब जेसी-767076वाई),
01 मई 2012

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एमटी) के रैंक में

शैक खबर वाली (सं. 14606276वाई अब जेसी-767101एम),
04 जून 2012/01 जून 2012 *

एम जगन्नाथन (सं. 14606282एन अब जेसी-767102पी), 01 जून
2012

जगदीश चन्द्र (सं. 14605523डब्ल्यू अब जेसी-767008एल),
26 मई 2012/01 मई 2012 *

सिकन्दर यादव (सं. 14605920पी अब जेसी-767061डब्ल्यू),
07 मई 2012/01 मई 2012 *

अश्वनी कुमार सिंह (सं. 14605959एफ अब जेसी-767064के),
12 मई 2012/01 मई 2012 *

जी रवी (सं. 14606162एल अब जेसी-767098एक्स), 01 जून
2012

नगर सिंह (सं. 14606010एन अब जेसी-767092डब्ल्यू), 02 जून
2012/01 जून 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एसए के रैंक में

पी वेंकटेशन (सं. 14606281एल अब जेसी-767071ए), 03 मई
2012/01 मई 2012 *

निरसु नारायण सिंह (सं. 14606399एम अब जेसी-767070एक्स),
12 मई 2012/01 मई 2012 *

विरेन्द्र सिंह (सं. 14596028एन अब जेसी-767066पी), 09 मई
2012/01 मई 2012 *

तरुण कुमार नाथ (सं. 14606129एल अब जेसी-766657के),
02 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

राकेश कुमार (सं. 14604179के अब जेसी-767137एल), 02 जून
2012/01 जून 2012 *

श्याम सुन्दर सिंह (सं. 14604951एच अब जेसी-767153एच),
05 जून 2012/01 जून 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (आई एण्ड पी)
के रैंक में

अश्वनी कुमार (सं. 14628774एफ अब जेसी-766894एन),
09 मई 2012/04 फरवरी 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

भंवर लाल (सं. 14599899वाई अब जेसी-767080एफ), 01 जून
2012

सुरत चन्देरा राय (सं. 14602143एम अब जेसी-767082एम),
01 जून 2012

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

शिव शंकर तिवारी (सं. 14595922के अब जेसी-767040ए),
01 मई 2012

- हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो.ईलेक्ट बी व्हीकल के रैंक में
आर मणीकंदन (सं. 14597207ए अब जेसी-767115एम), 01 जून 2012
- हवलदार से नायब सूबेदार पेंटर और डेकोरेटर के रैंक में
अच्छे राम (सं. 14613616ए अब जेसी-767088एन), 01 जून 2012
- हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राइवर (रिकवरी) के रैंक में
विपन कुमार वर्मा (सं. 14599857एम अब जेसी-767126वाई), 05 जून 2012/01 जून 2012*
- शिव शंकर यादव (सं. 14599618एक्स अब जेसी-767123एल), 01 जून 2012
- सुनील चन्द्र राय (सं. 14600692एन अब जेसी-767134एक्स), 12 जून 2012/01 जून 2012*
- अजय कुमार सिंह (सं. 14598945डब्ल्यू अब जेसी-767120एक्स), 07 जून 2012/01 जून 2012*
- हवलदार से नायब सूबेदार ड्राइवर (एमटी) के रैंक में
राकेश कुमार पांडे (सं. 14606550एम अब जेसी-767096एम), 01 जून 2012
- रीत राम (सं. 14605547ए अब जेसी-767027डब्ल्यू), 05 मई 2012/01 मई 2012*
- खुशाल सिंह (सं. 14606238के अब जेसी-767099ए), 04 जून 2012/01 जून 2012*
- सतीश कुमार (सं. 14606729ए अब जेसी-767104ए), 01 जून 2012
- लायक राम शर्मा (सं. 14606079एक्स अब जेसी-767034एम), 02 जून 2012/01 जून 2012*
- सहदेव सिंह (सं. 14605980के अब जेसी-767035पी), 04 जून 2012/01 जून 2012*
- रवया सिंह रावत (सं. 14605999एच अब जेसी-767037एक्स), 04 जून 2012/01 जून 2012*
- सेखर कुमार मल्लिक (सं. 146606199डब्ल्यू अब जेसी-767093वाई), 04 जून 2012/01 जून 2012*
- एस मुरली (सं. 14606208एम अब जेसी-767094एफ), 12 जून 2012/01 जून 2012*
- सी एच रमन सिंघा (सं. 14606293ए अब जेसी-767103एक्स), 09 जून 2012/01 जून 2012*
- हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में
खुशीद अहमद (सं. 14604047डब्ल्यू अब जेसी-767152ए), 07 जून 2012/01 जून 2012*
- हरी किशन (सं. 14604019के अब जेसी-767140एन), 02 जून 2012/01 जून 2012*
- सत्येन्दर पाल सिंह तोमर (सं. 14604189एन अब जेसी-767139डब्ल्यू), 01 जून 2012
- महावीर प्रसाद (सं. 14604186ए अब जेसी-767138एन), 01 जून 2012
- रमेश चन्द (सं. 14604040एम अब जेसी-767150पी), 04 जून 2012/01 जून 2012*
- हरे ओम सिंह (सं. 14604184पी अब जेसी-767136एच), 02 जून 2012/01 जून 2012*
- दया राम (सं. 14604036के अब जेसी-767145के), 04 जून 2012/01 जून 2012*
- महेन्दर (सं. 14604017वाई अब जेसी-767140एल), 02 जून 2012/01 जून 2012*
- हवलदार से नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में
राज नरायण यादव (सं. 14606359एल अब जेसी-766964एफ), 01 मई 2012
- हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में
विजय कुमार (सं. 14600964एच अब जेसी-766948के), 21 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
- नारायण दत्त (सं. 14601930एफ अब जेसी-767042एल), 02 मई 2012/01 मई 2012*
- भंवर सिंह (सं. 14596064वाई अब जेसी-766931डब्ल्यू), 10 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
- सुतार राजेन्द्र दिगम्बर (सं. 14603101एम अब जेसी-767044डब्ल्यू), 01 मई 2012
- गुप्ता सुनील कुमार एस लाल (सं. 14603422के अब जेसी-767047के), 01 मई 2012
- बिष्ट जगदीश चन्द्र सिंह (सं. 14603420वाई अब जेसी-767046एफ), 01 मई 2012
- देवबन्ना वैदया (सं. 14601918ए अब जेसी-767041एच), 01 मई 2012
- महावीर सिंह राणा (सं. 14601939डब्ल्यू अब जेसी-767043एन), 01 मई 2012
- महके सुरेश रामजी (सं. 14603124एन अब जेसी-767045वाई), 01 मई 2012
- हवलदार से नायब सूबेदार ड्राइवर (एमटी) के रैंक में
ई अमुटेन सिंह (सं. 14651002एफ अब जेसी-767023ए), 03 मई 2012/01 मई 2012*
- एम संजीत सिंह (सं. 14651525ए अब जेसी-767024एच), 03 मई 2012/01 मई 2012*
- हरीकेश चन्द्र तिवारी (सं. 14605878एफ अब जेसी-767029एफ), 03 मई 2012/01 मई 2012*
- हरी दासन पी वी (सं. 14605924एल अब जेसी-767063एफ), 04 मई 2012/01 मई 2012*
- राजेश कुमार पांडे (सं. 14605908एन अब जेसी-767059वाई), 01 मई 2012
- रमेश सिंह (सं. 14605559पी अब जेसी-767028वाई), 05 मई 2012/01 मई 2012*

अभय कुमार (सं. 14605898पी अब जेसी-767030डब्ल्यू), 01 मई 2012

विनोद कुमार मौर्या (सं. 14605923एच अब जेसी-767062वाई), 05 मई 2012/01 मई 2012 *

एम डी क्याम (सं. 14605901के अब जेसी-767031वाई), 01 मई 2012

अनीरुध कुमार (सं. 14606038एन अब जेसी-767060एन), 08 मई 2012/01 मई 2012 *

सरवेश कुमार यादव (सं. 14605215डब्ल्यू अब जेसी-767026एन), 03 मई 2012/01 मई 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में

चंचल सिंह (सं. 14598471ए अब जेसी-766975एन), 09 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

अनाल अप्पा राव (सं. 14598467एक्स अब जेसी-766974एल), 10 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

नरेश कुमार (सं. 14597808एल अब जेसी-767011एल), 30 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

नारू गोपाल सिंघा राय (सं. 14595011एन अब जेसी-766903के), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

भूप सिंह (सं. 14599058डब्ल्यू अब जेसी-767056एल), 05 मई 2012/01 मई 2012 *

बालक्रीशन पाटील (सं. 14598664ए अब जेसी-767053एक्स), 06 मई 2012/01 मई 2012 *

वीरेन्द्र सिंह (सं. 14598828एल अब जेसी-767054ए), 04 मई 2012/01 मई 2012 *

एम ए नरसय्या रेड्डी (सं. 14599350एल अब जेसी-767075एन), 01 मई 2012

दिन बन्धु कुमार (सं. 14593412एन अब जेसी-767052पी), 04 मई 2012/01 मई 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एसए के रैंक में

संतोश कुमार शर्मा (सं. 14606366एफ अब जेसी-766968एक्स), 30 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

लच्छा राम सप्रिय (सं. 14606664एक्स अब जेसी-766966एम), 11 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

सन्नप्पन ए (सं. 14606367के अब जेसी-766965के), 18 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

दीबाकर प्रधान (सं. 14606393एल अब जेसी-767068ए), 05 मई 2012/01 मई 2012 *

रामेश्वर सिंह (सं. 14601301के अब जेसी-767067एक्स), 07 मई 2012/01 मई 2012 *

प्रेम कुमार (सं. 14600351एच अब जेसी-766955ए), 06 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

ओम प्रकाश पांडे (सं. 14606385एम अब जेसी-767069एच), 07 मई 2012/01 मई 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर एवीएन टेक अर्वेनेक्स के रैंक में

यश पाल सिंह (सं. 14636206डब्ल्यू अब जेसी-766892एच), 12 मार्च 2012/01 मार्च 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन इलेक्ट के रैंक में

परमार मंगा भाई (सं. 14628359एल अब जेसी-767021पी), 02 मई 2012/01 मई 2012 *

मनोज कुमार राउत (सं. 14629046वाई अब जेसी-767022एक्स), 02 मई 2012/01 मई 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एवीएन इलेक्ट के रैंक में

साम सेलवीराज (सं. 14628165एच अब जेसी-767019एक्स), 02 मई 2012/01 मई 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

अशोक कुमार यादव (सं. 14614728एम अब जेसी-766863एन), 30 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 438, दिनांक 26 सितम्बर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर कमोडोर के मूल रैंक में

एयर कमोडोर, वी पान्दे, 17647, वैई (या) 01.11.2011

उड़न शाखा

ग्रुप कैप्टन (उड़न) के मूल रैंक में

ग्रुप कैप्टन वी मोहिन्द्रा, 19867, उ(पा) 30 दिसम्बर 2010 इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन एच पी कुमार (19563) उ(पा) से नीचे और ग्रुप कैप्टन जेवीएस गुरन (19879) उ(पा) के ऊपर प्रदर्शित होगा।

ग्रुप कैप्टन जे बाबू, 18543, वैई (वै) 16 जनवरी 2012 (कल्पित वरीयता 01 जुलाई 2011)

ग्रुप कैप्टन वी कुमार, 18495, वैई (या), 01 जुलाई 2011

ग्रुप कैप्टन आर सुब्बाराव, 18438, वैई (या), 16 जनवरी 2012 (कल्पित वरीयता 02 अगस्त 2011)

ग्रुप कैप्टन के के सिंह, 18736, वैई (या), 02 अगस्त 2011

ग्रुप कैप्टन सी सी प्रानी, 18739, वैई (या), 05 दिसम्बर 2011 (कल्पित वरीयता 01 सितम्बर 2011)

ग्रुप कैप्टन डी बाना, 18742, वैई (वै), 01 सितम्बर 2011

ग्रुप कैप्टन आई ए खान, 18725, वैई (या), 05 दिसम्बर 2011

शुद्धि-पत्र

ग्रुप कैप्टन ए आर इ आर आर सी रेड्डी, 18726, वैई (या), 05 दिसम्बर 2011

ग्रुप कैप्टन एस सिंह, 18752, वैई (वै), 05 दिसम्बर 2011

ग्रुप कैप्टन एस जैन, 19078, वैई (या), 05 दिसम्बर 2011

ग्रुप कैप्टन एस के पठानिया, 19058, वैई (वै), 05 दिसम्बर 2011

ग्रुप कैप्टन एम के शर्मा, 19085, वैई (या), 05 दिसम्बर 2011

ग्रुप कैप्टन एस अख्तर, 19083, वैई (या), 05 दिसम्बर 2011

ग्रुप कैप्टन पी वाणखडे, 19032, वैई (वै), 05 दिसम्बर 2011

ग्रुप कैप्टन सी एस श्रीधरन, 19411, वैई (या), 16 जनवरी 2012

ग्रुप कैप्टन ए एल त्रेहान, 19426, वैई (वै), 16 जनवरी 2012

ग्रुप कैप्टन ए गोयल, 19703, वैई (या), 16 जनवरी 2012

ग्रुप कैप्टन एम गुप्ता, 19675, वैई (वै), 16 जनवरी 2012

ग्रुप कैप्टन के जैन, 19707, वैई (या), 01 फरवरी 2012

ग्रुप कैप्टन यू कुमार, 19729, वैई (वै), 01 फरवरी 2012

ग्रुप कैप्टन वी द्विवेदी, 19697, वैई (या), 01 फरवरी 2012

ग्रुप कैप्टन के राधाकृष्णन, 19643, वैई (वै), 01 फरवरी 2012

ग्रुप कैप्टन वाई के सलुजा, 19696, वैई (या), 01 फरवरी 2012

ग्रुप कैप्टन पी एस सेठी, 19724, वैई (वै), 01 फरवरी 2012

ग्रुप कैप्टन आर रेक्स, 19716, वैई (वै), 01 फरवरी 2012

ग्रुप कैप्टन वाई श्रीनिवास, 20035, वैई (वै), 01 फरवरी 2012

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2 (बी)

सं. 439, दिनांक 26 सितम्बर 2012--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, जोगिन्दर कुमार (जन्म तिथि 21 जून 1952) को सेवानिवृत्ति की आयु होने पर दिनांक 30 जून 2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त करते हैं

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, के के शर्मा (जन्म तिथि 20 जून 1952) को सेवानिवृत्ति की आयु होने पर दिनांक 30 जून 2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त करते हैं

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्री प्रेम सागर (जन्म तिथि 08 जून 1952) को सेवानिवृत्ति की आयु होने पर दिनांक 30 जून 2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त करते हैं

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, मोहम्मद ईदरिस (जन्म तिथि 07 जून 1952) को सेवानिवृत्ति की आयु होने पर दिनांक 30 जून 2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त करते हैं

टी पी केरकेट्टा
अवर सचिव

सं. 440, दिनांक 26 सितम्बर 2012--दिनांक 15 जून, 2012 की समसंख्यक अधिसूचना की तीसरी पंक्ति में 15,600--39,100/-रु. का वेतनमान एवं ग्रेड वेतन 8,000/- रु. एवं सैन्य सेवा वेतन 6,000/- रु. को 37,400--67,000/- रु. एवं ग्रेड वेतन 8,000/- रु. एवं सैन्य सेवा वेतन 6,000/- रु. पढ़ा जाए

टी पी केरकेट्टा
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 441, दिनांक 27 सितम्बर 2012--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

भारत सरकार के राजपत्र, भाग-1, अनुभाग-4, जो दिनांक 01 मई 1999 को प्रकाशित हुआ है, उसके शीर्षक नियमित सेना (स्थायी आयोग) के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, जो कि आई सी संख्या 56867 के सरसर मुकुंद माधवराव, ईएमई के संदर्भ में है, जिनका स्थानांतरण 99 नियमित पाठ्यक्रम से 83 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम में हुआ है।

के लिए -- आई सी संख्या-56867 के सरसर मुकुंद माधवराव, ईएमई

पढ़े -- रिक्त

भारत सरकार के राजपत्र, भाग-1, अनुभाग-4, जो दिनांक 17 जुलाई 1999 को प्रकाशित हुआ है, उसके शीर्षक नियमित सेना (स्थायी आयोग) के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, जो कि आईसी संख्या-56867 के सरसर मुकुंद माधवराव, ईएमई के संदर्भ में है, जिनका स्थानांतरण 99 नियमित पाठ्यक्रम से 83 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम में हुआ है, उन्हें दिनांक 07 दिसम्बर 1996 लेफ्ट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया गया था और उन्हें 11 जून 1995 से 83 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम वालों के साथ पूर्व दिनांकित वरिष्ठता दी जाती है। इन्हें पूर्व दिनांकित वरिष्ठता के सम्बन्ध में, प्रशिक्षण अवधि तथा तकनीकी पाठ्यक्रम में स्थानांतरण के पूर्व की अवधि के लिए वेतन तथा भत्ता से सम्बन्धित बकाया नहीं दिया जाता है।

डी/28921 सरसर मुकुंद माधवराव (आईसी-56867 के), ईएमई की वरिष्ठता बी विजय वैन्केटेश (आईसी-57340एफ), इंजीनियर्स के नीचे।

राहुल सांगवान
ले कर्नल
एमएस-8बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 13th October 2012

PRESIDENT'S SECRETARIAT

No. 101-Pres/2012 the 15th August 2012—The President is pleased to approve the award of the “Bar to Sena Medal/Army Medal” to 15614636W Lance Naik Patey Tassuk, Sena Medal, Brigade of The Guards/21st Battalion, The Rashtriya Rifles (Posthumous) for the acts of exceptional courage.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 102-Pres/2012—The President is pleased to approve the award of the “Sena Medal/Army Medal” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. IC-54038X Colonel Vikrant Jain
Regiment of Artillery/98th Field Regiment
2. IC-60963W Major Ravindra Kumar Gurung,
Shaurya Chakra, Regiment of Artillery/33rd
Field Regiment
3. IC-62696Y Major Amrik Singh
666 Army Aviation Squadron (Reconnaissance and
Observation)
4. IC-63211X Major Chirom Ibungo
8th Battalion The Garhwal Rifles
5. IC-63503A Major Bharat Sharma
Bihar Regiment/24th Battalion The Rashtriya
Rifles
6. IC-64358A Major Junior Mutum
Corps of Engineers/15th Battalion The Assam
Rifles
7. IC-66682W Major Ranjeet Kumar Jha
Brigade of the Guards/21st Battalion The Rashtriya
Rifles
8. IC-67159X Major N Dinesh
The Grenadiers/55th Battalion The Rashtriya
Rifles
9. IC-67358L Major Pradeep Singh Khati
6th Battalion The Parachute Regiment
10. IC-68292M Major Animesh Srivastava
Corps of Engineers/17th Battalion The Rashtriya
Rifles
11. IC-69305L Major Nimrodsun Mosahary
17th Battalion The Mahar Regiment
12. SS-41962Y Major Tribhuwan Kant Sharma
Army Air Defence/10th Battalion The Rashtriya
Rifles
13. SS-42513W Major Sourabh Ramchandra
Deshpande,
Regiment of Artillery/25th Battalion The Assam
Rifles
14. IC-68748A Captain Aman Mehta
15th Battalion The Dogra Regiment
15. IC-68878H Captain Aseem Gupta
Corps of Engineers/55th Battalion The Rashtriya
Rifles
16. IC-69133F Captain Kapse Sameer Ashokrao
Regiment of Artillery, 6th Battalion The Rashtriya
Rifles
17. SS-41850Y Captain Amos Hungyo
Regiment of Artillery/42nd Battalion The Assam
Rifles
18. SS-44249M Captain Mithlesh Kumar Singh
Corps of Electrical and Mechanical Engineers/
2/11th Battalion The Gorkha Rifles
19. IC-72025H Lieutenant Samrat Ghosh
Army Ordnance Corps/7th Battalion The Dogra
Regiment
20. IC-72284L Lieutenant Nishchal Bharadwaj
Army Ordnance Corps/19th Battalion The
Madras Regiment
21. JC-459379A Subedar Ghule Ramesh Gangaram
26th Battalion The Maratha Light Infantry
22. JC-499056A Subedar Mohinder Singh
Sikh Regiment/6th Battalion The Rashtriya
Rifles
23. JC-499444X Subedar Kashmir Singh
Sikh Regiment/6th Battalion The Rashtriya
Rifles
24. JC-273366K Naib Subedar Gurdial Singh
Regiment of Artillery/217th Field Regiment
(Posthumous)
25. 4073839M Havildar Pawar Dnyanoba
Pandurang
Maratha Light Infantry/17th Battalion The Rashtriya
Rifles
26. 4075364M Havildar Devendra Singh
8th Battalion The Garhwal Rifles
27. 13755792X Havildar Ajay Subba
3rd Battalion The Jammu and Kashmir Rifles
28. 15612160W Lance Havildar Sanjeev Singh
Brigade of the Guards/21st Battalion The Rashtriya
Rifles
29. 15485612M Acting Lance Dafadar Vikas Kumar
Armoured Corps/53rd Battalion The Rashtriya
Rifles

30. 2488089X Naik'Bhupinder Singh
Punjab Regiment/22nd Battalion The Rashtriya
Rifles
31. 3400413A Naik Harjinder Singh
13th Battalion The Sikh Regiment
32. 3994415K Naik Satpal Singh
15th Battalion The Dogra Regiment
33. 4272784L Naik Sewak Kachhap
Bihar Regiment/24th Battalion The Rashtriya
Rifles
34. 2501150X Sepoy Karamveer Singh
The Punjab Regiment/22nd Battalion The Rashtriya
Rifles
35. 2608805W Sepoy Roshan BC
19th Battalion The Madras Regiment
36. 3004195W Sepoy Rajiv Singh
Rajput Regiment/44th Battalion The Rashtriya
Rifles
37. 4085260Y Rifleman Ajay Singh
8th Battalion The Garhwal Rifles
38. 10363038P Rifleman Amit Sharma
126th Infantry Battalion (Territorial Army)
Jammu and Kashmir Rifles (Posthumous)
39. 2698239A Grenadier Yakooob
The Grenadiers/39th Battalion The Rashtriya
Rifles
40. 2702858N Grenadier Amar Chand
The Grenadiers/29th Battalion The Rashtriya
Rifles
41. 14444925A Gunner Gindar Paik
Regiment of Artillery/33rd Field Regiment
42. 15612686H Guardsman Imcha Toshi
Brigade of the Guards/21st Battalion The Rashtriya
Rifles

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 103-Pres/2012—The President is pleased to approve the award of the “Nao Sena Medal/Navy Medal” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. Lieutenant Commander Sujith Parakkat Menon (05129-F)
2. Lieutenant Sailesh Kumar Tyagi (06273-F)
3. Ramesh Kumar Kumhar, POA (ACMD) (118426-A)

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 104-Pres/2012—The President is pleased to approve the award of the “Vayu Sena Medal/Air Force Medal” to Wing Commander Subramaniam Srinivasan (23773) Flying (Pilot) for the acts of exceptional courage.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 425, dated 21st September 2012—The President is pleased to appoint Praveen Kumar, IOFS (1992) as Director in the Ministry of Defence with effect from 25.06.2012 (FN) for a period of five years i.e. upto 24.6.2017, or until further orders, whichever event takes place earlier.

K MURALI
Under Secy

No. 426, dated 21st September 2012—The President is pleased to appoint Cdr. Phanindra Yellapragada (03726-T) as Planning Officer (Defence) in the Ministry of Defence in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 8,000/- plus MSP Rs. 6,000/- on deputation basis for a period of three (3) years with effect from the forenoon of 11th June, 2012 or till further orders, whichever is earlier.

T P KERKETTA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 427, dated 21st September 2012—The President is pleased to appoint the under mentioned Officers to the grade of Joint Directors on regular basis with effect from the date mentioned against their respective names :—

KMP Singh, 12 Oct 1954, 01 Apr 2008
AK Laroia, 12 Aug 1952, 01 Apr 2010
Poonam Goila, 20 Jul 1959, 01 Apr 2010
R Natarajan, 15 Jul 1954, 07 Feb 2012
GV Singh, 30 May 1953, 07 Feb 2012

SHANKAR SINGH
Director

ARMY BRANCH

No. 428, dated 21st September 2012—The President is pleased to appoint the under mentioned Officers to the grade of Deputy Directors on regular basis with effect from the date mentioned against their respective names :—

Arvind, 17 Jun 1969, 01 Apr 2007
D Salaimaran, 05 Jun 1970, 01 Apr 2007
Arvind Bakshi, 21 Sep 1957, 01 Apr 2008

Nidhi Ojha, 26 Sep 1972, 01 Apr 2008

Abinash Kumar, 16 Nov 1965, 01 Apr 2008

Pankaj Rajbanshi, 01 May 1954, 01 Apr 2008

Ashok Chakrapani, 14 Apr 1970, 01 Apr 2008

A K LAROIYA
Dy CAO (A)

ARMY BRANCH

No. 429, dated 24th September 2012—

MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

The Competent Authority is pleased to appoint Bhavyashree (DoB : 25 Nov 1981) as Section Officer (Group 'B' Gazetted) of AFHQ Civil Service on regular basis in Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800 with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 02 Sep 2011

The Competent Authority is pleased to extend the appointment of the following Section Officers with effect from and upto the dates mentioned against their names or till retirement or till regular incumbents become available whichever is earlier:—

IC Sharma, 14 Jun 1955, 01 Apr 2011, 30 Jun 2012

I. Vaidyanathan, 08 Jul 1953, 01 Apr 2011, 30 Jun 2012

SC Garg, 03 Jul 1955, 01 Apr 2011, 30 Jun 2012

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents

The ad hoc appointment will not bestow on these officers a claim for appointment to the above post on regular basis. The services rendered on ad-hoc basis in the grade of Section Officer would not count for seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next grade

The President is pleased to extend the appointment of the following Deputy Directors with effect from and upto the dates mentioned against their names or till retirement or till regular incumbents become available whichever is earlier:—

Kundan Kumar, 17 Oct 1963, 19 Oct 2011, 18 Apr 2012

Anita Kumari, 01 Jan 1967, 19 Oct 2011, 18 Apr 2012

Ratnesh Kumar, 15 Jan 1975, 19 Oct 2011, 18 Apr 2012

Pankaj Singh Sisodiya, 03 Aug 1974, 11 Nov 2011, 18 Apr 2012

Arun Kumar Tiwari, 20 Aug 1971, 19 Oct 2011, 18 Apr 2012

Rajesh Tiwari, 30 Jun 1961, 01 Jul 2011, 30 Jun 2012

SK Mishra, 25 Jan 1962, 01 Jul 2011, 30 Jun 2012

Mahesh Kumar Singh, 25 Mar 1968, 19 Apr 2012, 18 Oct 2012

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents

The ad hoc appointment will not bestow on these officers a claim for appointment to the above post on regular basis. The seniority in this Grade will not count for seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next grade

A K LAROIYA
Dy CAO (A)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 430, dated 24th September 2012—The President is pleased to make the following appointment:—

Dr Veerathu Kalyana Chakravarthy to be temporary Scientist 'E' on probation for one year in DRDL, Hyderabad with effect from 19 Jan 2011 (F/N) in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000 (Pay Band-4)+Rs 8,700/- Grade Pay

ANJESH KUMAR
Jt Dir (Pers)

No. 431, dated 24th September 2012—The Notification No. A-19013/9/2007-D(Estt.I/Gp.I) dated 13.04.2012 relieving Smt. Gitanjali Gupta Kundara, IAS (UT:96) to join Delhi Transport Corporation as Chief Vigilance Officer stands cancelled

Consequent on her appointment as Chief Vigilance Officer in the Delhi Transport Corporation (DTC), New Delhi under the Government of NCTD, the services of Smt. Gitanjali Gupta Kundara, IAS (UT:96), Director, Ministry of Defence are placed at the disposal of the Delhi Transport Corporation, New Delhi w.e.f. 26 Apr 2012 (AN)

K MURALI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 432, dated 24th September 2012—The President is pleased to make substantive promotions of Maj General to the following officers:—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

To be Subs Maj Gen

(V-00344) Brig NS Kanwar, RVC, 03 Nov 2011

To be Subs Brig

(IC-39998) Col VK Jaswal, Garh Rif, 01 Aug 2009 with seniority from 26 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40158) Col A Kainthla, VSM, Jat—07 Aug 2009 with seniority from 02 Jul 2008 without effect on pay and pension

A CHANDRASHEKHAR
Dir/MS(X)

ARMY BRANCH

433, dated 25th September 2012—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION (ARMY MEDICAL CORPS)

Gp Capt to be Air Cmde (& Equivalent)

M S Butola (MR-04993F) (AF-30034)—18 Oct 2011, with notional seniority without effect on pay & pension from 29 Aug 2011

Wg Cdr to be Gp Capt (& Equivalent)

V Sharma (MR-06266H) (AF-21386T)—03 Nov 2011, with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Sep 2011

Wg Cdr to Gp Capt (Time Scale)

(MR-05889A) (AF-19734R) Wg Cdr J C Sharma, 11 Apr 2012

(MR-05530Y) (AF-18698G) Wg Cdr SS Dhavala, 01 Dec 2011

(MR-06308K) (AF-19339F) Wg Cdr S Mishra, 07 Dec 2011

(MR-06488X) (AF-19343H) Wg Cdr KS Raju, 09 Dec 2011

(MR-06220A) (AF-19371S) Wg Cdr Dilish Malik, 29 Jan 2012

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 434, dated 25 September 2012—The President is pleased to make the following promotions. These promotions will be subject to final outcome of SLP (Civ) No. 1752-1754/2011 titled Secretary, Ministry of Defence Vs Babita Punia & others:—

REGULAR ARMY SHORT SERVICE COMMISSION (WS)

Maj to be Lt Col

(WS-00106) Sandhya Yadav, Engrs, 11 Mar 2009 (but Pay and Allowances wef 12 Sep 2011)

(WS-00126) Renu Nautiyal, AOC, 26 Aug 2009 (but Pay and Allowances wef 12 Sep 2011)

(WS-00130) Nagaveni NV, Engrs, 26 Aug 2009 (but Pay and Allowances wef 12 Sep 2011)

(WS-00134) Anupama Munshi, ASC, 26 Aug 2009 (but Pay and Allowances wef 12 Sep 2011)

(WS-00140) Prerana Pandit, Int, 26 Aug 2009 (but Pay and Allowances wef 12 Sep 2011)

(WS-00143) Seema Singh, AOC, 26 Aug 2009 (but Pay and Allowances wef 12 Sep 2011)

(WS-00153) Rita Kumari, AOC, 09 Mar 2010 (but Pay and Allowances wef 12 Sep 2011)

PRABHAT ROSS
Dy Dir
MS-8C

ARMY BRANCH

No. 435, dated 25th September 2012—

MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

The President is pleased to promote TP Srivastava, Joint Director (Group 'A' Gazetted) (Date of Birth 09 Nov 1955) of AFHQ Civil Service as Director (Group 'A' Gazetted) in the Pay Band-IV, Rs. 37,400—67,000 with Grade Pay of Rs. 8,700/- on regular basis with effect from 07 Dec 2011

The President is pleased to promote Mahesh Kumar Singh, Section Officer (Group 'B' Gazetted) (DoB : 25 Mar 1968) of AFHQ Civil Service as Deputy Director (Group 'A' Gazetted) in Pay Band-III, Rs. 15,600—34,800 with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 30 Dec 2011 to 18 Apr 2012 or till regular incumbents become available whichever is earlier

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents

The service rendered on ad hoc basis in the grade of Dy Director would not count for the purpose of his seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next higher grade

The President is pleased to promote Arun Kumar Tiwari, Section Officer (Group 'B' Gazetted) (DoB : 20 Aug 1971) of AFHQ Civil Service as Deputy Director (Group 'A' Gazetted) in Pay Band-III, Rs. 15,600—34,800 with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 06 Oct 2011 to 18 Oct 2011 or till regular incumbents become available whichever is earlier

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents

The service rendered on ad hoc basis in the grade of Dy Director would not count for the purpose of his seniority in

that grade and for eligibility for promotion to the next higher grade

The Competent Authority is pleased to promote the following Assistants (Group 'B' Non-Gazetted) of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) on regular basis, in Pay Band-2, Rs. 9,300–34,800 with Grade Pay of Rs. 4,800/- on the basis of the LDCE Examination with effect from the date mentioned against their respective names:—

Sanjay Kumar Jha, 28 Feb 1973, 2006, 01 Oct 2011

Shailendra Kumar Mishra, 01 Mar 1976, 2006, 01 Oct 2011

RC Sahoo, 13 Jun 1973, 2006, 01 Jan 2009

AV Kamal, 03 Jun 1954, 2007, 01 Oct 2011

Anuradha Mitra, 29 Dec 1956, 2008, 01 Oct 2011

PJ John, 16 Nov 1955, 2008, 01 Oct 2011

Ashok Kumar, 02 Jul 1969, 2008, 12 Aug 2008

The Competent Authority is pleased to promote Sukhbir Singh (DoB : 19 Aug 1954), Assistant (Group 'B' Non-Gazetted) of AFHQ Civil service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 11 Jul 2011 to 10 Jul 2012 or till retirement or till regular incumbents become available whichever is earlier

The appointment on ad hoc basis will not bestow on the person a claim for regular appointment

The service rendered on ad hoc basis in the grade of Section Officer would not count for the purpose of seniority in that grade and of eligibility for promotion to the next higher grade

A K LAROIYA
Dy CAO (A)

ARMY BRANCH

No. 436 dated 25th Septebmer 2012—The President is please to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MARATHA LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Bhapkar Balu Harichandra (No. 2788195P now JC-460450P), 26 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Kiran Patil (No. 2789090X now JC-460451X), 09 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12 Sep 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Zond Ganesh Kisanrao (No. 2788587H now JC-460452A), 30 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Shaik Baji (No. 2789791N now JC-460453H), 24 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Prakash Narayan (No. 2787598H now JC-460454L), 03 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Zore Babu Bhagoji (No. 2789018F now JC-460455N), 26 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Kokate Arun Namdeo (No. 2789008X now JC-460456W), 30 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Sakpal Narayan Ganpat (No. 2789210L now JC-460457Y), 02 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Gaikwad Vijaykumar Subrav (No. 2789832M now JC-460458F), 30 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Balu Gangaram Davekar (No. 2788249L now JC-460459K), 01 Jan 2012

Hav Tanaji (No. 2790156P now JC-460460Y), 01 Jan 2012

Hav Khewale Rajesh Zinger (No. 2790562P now JC-460461F), 01 Jan 2012

Hav Ghule Mukunda Baban (No. 2790195N now JC-460462K), 02 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Bhosale Mahadeo Prataprao (No. 2786396P now JC-460463M), 21 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Mokashi Mohan Apaso (No. 2788385F now JC-460464P), 01 Jan 2012

Hav Shinde Dattaram Pandurang (No. 2789309F now JC-460465X), 03 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ganje Hirachand Bhujangrao (No. 2789279P now JC-460466A), 01 Jan 2012

Hav Chaugule Uttam Bhujinga (No. 2788012N now JC-460467H), 02 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Katvare Sanjay Baliram (No. 2788722L now JC-460468L), 17 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Teli Ramesh Shankar (No. 2791172Y now JC-460491Y), 24 Feb 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Nandkumar Sataba (No. 2789745Y now JC-460492F), 05 Mar 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Kasalkar Namdev Vasant (No. 2791228A now JC-460493K), 01 Mar 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Chandekar Jaywant Babu (No. 2788985K now JC-460494M), 05 Mar 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Khotele Ghanshyam Shalikram (No. 2790200N now JC-460495P), 29 Feb 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Desai (No. 2787042Y now JC-460496X), 05 Mar 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ravindra (No. 2788254W now JC-460497A), 15 Mar 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Divekar Dnyandev Ratan (No. 2787551X now JC-460480M), 18 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Mahale Balasaheb Ananda (No. 2789009A now JC-460481P), 27 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Kadam Naresh Bhiku (No. 2789161N now JC-460482X), 26 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Bhagat Chandrakant Lakshmana (No. 2789180Y now JC-460483A), 12 Feb 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Nalaband Shyameer (No. 2790484H now JC-460484H), 18 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Mandlik Nana Asaram (No. 2789364X now JC-460485L), 25 Feb 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Maruti Janaba (No. 2789042X now JC-460486N), 05 Mar 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Bhosale Surendra Maruti (No. 2791217N now JC-460487W), 18 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Thube Raju Somnath (No. 2790329F now JC-460488Y), 01 Mar 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Shinde Tatyasaheb Hindurao (No. 2789740A now JC-460489F), 10 Feb 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Kurandale Genbhai Namdeo (No. 2793073P now JC-460490W), 02 Mar 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 05 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Mohd Moqim (No. 2790284M now JC-460469N), 03 Feb 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12 Sep 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Jadhav Chandra Sekhar Parwati (No. 2791667L now JC-460470H), 14 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 27 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Bhosale Shahuraj Narayan (No. 2790321P now JC-460471L), 24 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Vithal Laxman Channe Wadkar (No. 2788299W now JC-460472N), 21 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Mahammad Rafee Ulla (No. 2788754N now JC-460473W), 21 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Salunke Satish Sakharam (No. 2789319L now JC-460474Y), 31 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Kadam Pradip Namdeo (No. 2787649L now JC-460475F), 01 Feb 2012

Hav Vikas Pawar (No. 2788857M now JC-460476K), 01 Feb 2012

Hav Kayapure Ramesh Annappa (No. 2788408X now JC-460477M), 01 Feb 2012

Hav Kankanwadi Durandundi Irappa (No. 2785779P now JC-460478P), 01 Feb 2012

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Clk (SD) Nirmal Kumar Giri (No. 2786295F now JC-460479X), 03 Feb 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 02 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Subhash Chander (No. 4184534F now JC-541015A), 21 Dec 2011/04 Dec 2011*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Devender Kumar (No. 4184903N now JC-541016H), 24 Dec 2011/08 Dec 2011*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Nain Singh (No. 4183294H now JC-541017L), 01 Jan 2012

Hav Jaman Singh (No. 4182695L now JC-541018N), 01 Jan 2012

Hav Narayan Datt (No. 4184004M now JC-541019W), 01 Jan 2012

Hav Rajiv Kumar (No. 4184331X now JC-541020L), 01 Jan 2012

Hav Kundan Singh Bohra (No. 4182654F now JC-541021N), 02 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Umakant Dwivedi (No. 4183745X now JC-541022W), 02 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Pushkar Singh (No. 4183820W now JC-541023Y), 02 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Devaki Nandan (No. 4183824M now JC-541024F), 02 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

NAGA REGT

Hav Noksuchui (No. 14702753N now JC-590295H), 12 Dec 2011/01 Nov 2011*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Bhupendra Singh (No. 14702200X now JC-590296L), 14 Dec 2011/15 Nov 2011*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Shohpu Kom (No. 14702576Y now JC-590297N), 08 Dec 2011/15 Nov 2011*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Daljit Singh (No. 14702203L now JC-590298W), 03 Dec 2011/01 Dec 2011*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Guna Nand (No. 14702204N now JC-590299Y), 20 Dec 2011

Hav Surendra Chand (No. 4182655K now JC-541025K), 13 Jan 2012/06 Dec 2011*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Sri Krishan Yadav (No. 4183465K now JC-541026M), 04 Feb 2012/01 Jan 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Hayat Singh (No. 4183166L now JC-541027P), 01 Jan 2012

Hav Govind Singh Rawat (No. 4183478F now JC-541028X), 01 Jan 2012

Hav Vijay Kumar (No. 4195126W now JC-541029A), 04 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Prakash Singh (No. 4182516A now JC-541030P),
05 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Vikash Prasad Yadav (No. 4182196W now JC-
541031X), 01 Jan 2012

Hav Birendra Singh (No. 4182622Y now JC-541032A),
01 Jan 2012

Hav Ghan Shyam Datt Yadav (No. 4181787L now JC-
541033H), 01 Jan 2012

Hav Khasti Ballabh (No. 4181675L now JC-541034L),
08 Feb 2012/20 Jan 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
20 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Rajesh Kumar (No. 4184887F now JC-541035N),
01 Feb 2012

Hav Bikram Singh (No. 4182524Y now JC-541036W),
01 Feb 2012

Hav Munendra Pal Singh (No. 13688108P now JC-
541037Y), 01 Feb 2012

Hav Jagdish Ram (No. 4183222Y now JC-541038F),
01 Feb 2012

Hav K Mohendro Kom (No. 14702835W now JC-
590300H), 21 Jan 2012/16 Dec 2011*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
16 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Devendra Singh Bisht (No. 4182391N now JC-
590301L), 21 Jan 2012/29 Dec 2011*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
29 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Hari Singh Majila (No. 4181243W now JC-
590302N), 21 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav P Hesho Mao (No. 14702672N now JC-590303W),
07 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Sudesh Kumar (No. 14702434F now JC-590304Y),
02 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav PS Shelshung Anal (No. 14702689F now JC-
590305F), 01 Feb 2012/13 Jan 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
13 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Soor Beer Singh Gusain (No. 14702436M now JC-
590306K), 01 Feb 2012

Hav Bhola Datt (No. 14702516L now JC-590307M),
01 Feb 2012

Hav Praveen Kumar (No. 14702520M now JC-590308P),
01 Feb 2012

Hav Ganesh Singh (No. 14702691Y now JC-590309X),
01 Feb 2012

Hav Sher Singh (No. 4181043A now JC-541039K),
01 Dec 2011

Hav Raja Singh (No. 4182434X now JC-541040Y),
08 Feb 2012/17 Jan 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
17 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Pramod Singh (No. 4183423X now JC-541041F),
01 Feb 2012

Hav Balam Singh Bisht (No. 4182868X now JC-
541042K), 03 Feb 2012/01 Feb 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Dan Singh (No. 4181050W now JC-541043M),
01 Feb 2012

Hav Pitambar Kapari (No. 4184146K now JC-541044P),
01 Feb 2012

Hav Sundar Singh (No. 4182857L now JC-541045X),
01 Feb 2012

Hav Samsher Singh (No. 4183852Y now JC-541046A),
15 Feb 2012/11 Jan 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
11 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Singh (No. 4183546K now JC-590310M),
11 Feb 2012/01 Feb 2012*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

9GR

To be Nb Sub

Hav Surendra Bikram Sahi (No. 5846973L now JC-
630005L), 03 Dec 2011/20 Nov 2011*

Hav/Clk Yadagiri Tatayya Naidu (No. 5847093F now
JC-630006N), 01 Dec 2011

Hav Keshar Bahadur Thapa (No. 5846916K now JC-
630007W), 03 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Netra Bahadur Chhetri (No. 5846731H now JC-
630008Y), 01 Dec 2011

Hav Bhim Jung Pande (No. 5847258P now JC-630009F),
01 Dec 2011

Hav Debendra Bikram Malla (No. 5847260M now JC-630010W), 16 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Om Bahadur Khattri (No. 5847128M now JC-630011Y), 01 Dec 2011

Hav Chandra Kiran Shahi (No. 5847218N now JC-630012F), 01 Dec 2011

Hav Krishna Bahadur Khadka (No. 5847408A now JC-630013K), 18 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Ammar Singh Basnet (No. 5847723W now JC-630014M), 18 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Tejindra Bahadur Khadka (No. 5847415W now JC-630015P), 25 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Tul Bahadur Thapa (No. 5846734W now JC-630016X), 15 Dec 2011/02 Dec 2011*

Hav Indra Bahadur Adhikari (No. 5846784F now JC-630017A), 17 Dec 2011/02 Dec 2011*

Hav Prem Bahadur Khadka (No. 5847266N now JC-630018H), 01 Jan 2012/21 Dec 2011*

Hav Pratap Malla (No. 5846918P now JC-630019L), 03 Jan 2012/22 Dec 2011*

Hav Ram Bahadur Shahi (No. 5846931Y now JC-630020A), 01 Jan 2012

Hav Arjun Bahadur Karki (No. 5846908L now JC-630021H), 01 Jan 2012

Hav Krishna Kumar Chand (No. 5847532F now JC-630022L), 01 Jan 2012

Hav Jagat Bahadur Khan Thakuri (No. 5847741Y now JC-630023N), 05 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Khim Bahadur Malla (No. 5847269F now JC-630024W), 09 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Gobinda Bahadur Khattri (No. 5847267W now JC-630025Y), 01 Jan 2012

Hav Youba Raj Chhetri (No. 5847358A now JC-630026F), 01 Jan 2012

Hav Durga Bahadur KC (No. 5847421K now JC-630027K), 01 Jan 2012

Hav Mahadav Shah (No. 5847435K now JC-630028M), 01 Jan 2012

Hav Durga Bahadur Khatri (No. 5846938H now JC-630029P), 01 Feb 2012

Hav Deepak Khadka (No. 5847344A now JC-630030K), 01 Feb 2012

Hav Khadak Bahadur Kuwar (No. 5847272F now JC-630031M), 01 Feb 2012

Hav Laksha Bahadur Adhikari (No. 5847276X now JC-630032P), 01 Feb 2012

Hav Kishan Chhetri (No. 5847371K now JC-630033X), 05 Feb 2012/01 Feb 2012*

Hav Krishna Bahadur Thapa (No. 5847436M now JC-630034A), 01 Feb 2012

Hav Min Bahadur KC (No. 5847445N now JC-630035H), 01 Feb 2012

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Hira Singh (No. 4073073N now JC-531092F), 01 Oct 2011/10 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Mahipal Singh Rawat (No. 4070487P now JC-531093K), 13 Nov 2011/22 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 22 Sep 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Hayat Singh Bhandari (No. 4070595Y now JC-531094M), 21 Dec 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Nandan Singh Rawat (No. 3391641Y now JC-531095P), 03 Oct 2011

Hav Dwareka Prasad Manori (No. 4070297H now JC-531096X), 10 Oct 2011

Hav Hosiyar Singh Sajwan (No. 4070660N now JC-531097A), 21 Dec 2011/01 Nov 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Surendra Singh (No. 4071324N now JC-531098H), 20 Nov 2011/01 Nov 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Rup Singh Rawat (No. 4070615F now JC-531099L), 18 Dec 2011/01 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Raghubir Singh (No. 4071664W now JC-531100P), 08 Dec 2011/01 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Natha Singh (No. 4069729A now JC-531101X), 03 Dec 2011/01 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Beer Singh (No. 4070603M now JC-531102A), 13 Dec 2011/01 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Pardeep Singh (No. 4070658W now JC-531103H),
01 Dec 2011

Hav Kailash Singh (No. 4070680F now JC-531104L),
01 Dec 2011

Hav Yashbir Singh (No. 4070781P now JC-531105N),
21 Dec 2011/01 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Virendra (No. 4070902L now JC-531106W), 21 Dec
2011/01 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Manbar Singh (No. 4070659Y now JC-531107Y),
21 Dec 2011/01 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Pan Singh, SC, SM (No. 4070872Y now JC-
531108F), 01 Dec 2011

Hav Dinesh Kumar Raturi (No. 4071364P now JC-
531109K), 01 Dec 2011

Hav Anil Kumar (No. 4070940F now JC-531110Y),
01 Dec 2011

Hav Mahabeer Prasad (No. 4070284L now JC-531032M),
01 Nov 2011/01 Apr 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Darshan Singh Bisht (No. 4071614L now JC-
531033P), 04 Aug 2011/01 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Rajendra Prasad Paliwal (No. 4071152K now JC-
531036H), 01 Sep 2011

Hav Mahabir Singh (No. 4070393X now JC-531037L),
01 Sep 2011

Hav Shekhar Singh (No. 4069832L now JC-531038N),
01 Sep 2011

Hav Laxman Singh Negi (No. 4069834W now JC-
531039W), 01 Sep 2011

Hav Kailash Chander (No. 4070179P now JC-531040L),
01 Sep 2011

Hav Dinesh Kumar (No. 4071927K now JC-531041N),
01 Sep 2011

Hav Anil Kumar, SM (No. 4073380L now JC-531042W),
01 Sep 2011

Hav Kalam Singh Kandari (No. 4070046Y now JC-
531043Y), 01 Sep 2011

Hav Jaswant Singh (No. 4073458L now JC-531044F),
01 Sep 2011

Hav Manendra Prasad (No. 4071902X now JC-531045K),
01 Sep 2011

Hav Narendra Singh Rawat (No. 2886238P now JC-
531046M), 01 Sep 2011

Hav Ravindra Singh (No. 4071230W now JC-531047P),
26 Sep 2011/01 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Makar Singh Panwar (No. 4070734X now JC-
531048X), 01 Nov 2011/01 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Vinod Kumar (No. 4070833A now JC-531049A),
01 Sep 2011

Hav Belam Singh (No. 4071667K now JC-531050P),
01 Sep 2011

Hav Prabhu Dayal Singh (No. 4071498N now JC-
531051X), 12 Oct 2011/01 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Jagmohan Singh (No. 4069975L now JC-531052A),
03 Sep 2011

Hav Prem Singh (No. 4070208Y now JC-531053H),
03 Sep 2011

Hav Ramesh Singh (No. 4070225Y now JC-531054L),
03 Sep 2011

Hav Sohan Singh (No. 4070469M now JC-531055N),
01 Nov 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Bhuwaneshwar Prasad (No. 4070524X now JC-
531056W), 01 Nov 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Prem Singh Rawat (No. 4069848W now JC-531057Y),
01 Oct 2011

Hav Ranjeet Singh (No. 4069855M now JC-531058F),
01 Oct 2011

Hav Raghubir Singh (No. 4069857X now JC-531059K),
01 Oct 2011

Hav Kushal Singh (No. 4069858A now JC-531060Y),
01 Oct 2011

Hav Guman Singh (No. 4070361P now JC-531061F),
01 Oct 2011

Hav Baldev Singh (No. 4070362X now JC-531062K),
01 Oct 2011

Hav Ranjeet Singh (No. 4070546W now JC-531063M),
01 Oct 2011

Hav Soban Singh (No. 4070276M now JC-531064P),
12 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Amar Singh (No. 4070977H now JC-531065X),
25 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Arjun Singh (No. 4071197K now JC-531066A),
25 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Raghubir Singh (No. 4071266P now JC-531067H),
09 Nov 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Jagdamba Prasad Nautiyal (No. 4071256L now JC-
531068L), 01 Oct 2011

Hav Satish Chandra (No. 4070357M now JC-531069N),
12 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Digambar Prasad (No. 4071272H now JC-531070H),
25 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Madan Singh (No. 4071293Y now JC-531071L),
25 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Chandra Singh (No. 13618058X now JC-
531072N), 07 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ompal Singh (No. 4070436F now JC-531073W),
29 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Vikram Singh (No. 4073525L now JC-531074Y),
13 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Birendra Singh (No. 4070547Y now JC-531075F),
29 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Kamal Singh (No. 4070499K now JC-531076K),
12 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Padam Singh (No. 4070057L now JC-531077M),
07 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Diwan Singh (No. 4070069A now JC-531078P),
07 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Gopal Singh (No. 4072311H now JC-531079X),
01 Oct 2011

Hav Mohan Chandra (No. 4072334K now JC-531080M),
01 Oct 2011

Hav Chandra Singh (No. 3183070M now JC-531081P),
20 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Bhupendra Singh (No. 4070664K now JC-
531082X), 24 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Saun Singh (No. 4070668A now JC-531083A),
24 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Kundan Singh (No. 4070758F now JC-531084H),
14 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Jeetpal Singh (No. 4070882H now JC-531085L),
24 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Bharat Singh (No. 4070905Y now JC-531086N),
14 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Balwant Singh (No. 4069819F now JC-531087W),
01 Nov 2011

Hav Prem Singh Rana (No. 4071307N now JC-531088Y), 09 Nov 2011/01 Nov 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Uttam Singh (No. 4071433A now JC-531089F), 01 Nov 2011

Hav Ravindra Singh (No. 4070369F now JC-531090W), 01 Nov 2011

Hav Param Shiv Prabhaker (No. 4071021Y now JC-531091Y), 12 Nov 2011/01 Nov 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk SD)

Hav (Clk SD) Madan Gopal (No. 4070424M now JC-531034X), 01 Sep 2011

Hav (Clk SD) Bhagwati Prasad Pant (No. 4071637M now JC-531035A), 02 Sep 2011/01 Sept 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk SD) 01 Sep 2011 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub

Hav Rajendra Prasad (No. 4071332M now JC-531111F), 04 Jan 2012/01 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Dharam Pal Singh Rawat (No. 4073632M now JC-531112K), 09 Jan 2012/22 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Sep 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Anil Kumar (No. 4070597K now JC-531113M), 30 Jan 2012/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Tejendra Singh (No. 4071889Y now JC-531114P), 18 Oct 2011/01 Oct 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Daleep Singh (No. 4072326L now JC-531115X), 01 Dec 2011

Hav Narendra Singh (No. 4070448W now JC-531116A), 13 Dec 2011/01 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Surendra Singh Kaintura (No. 4070958X now JC-531117H), 24 Dec 2011/01 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Thakur Singh (No. 4071018Y now JC-531118L), 24 Dec 2011/01 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Kedar Datt (No. 4070795P now JC-531119N), 01 Feb 2012/28 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Madan Singh (No. 4071210H now JC-531120H), 01 Feb 2012/28 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Datt (No. 4071423W now JC-531121L), 01 Feb 2012/28 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Gajendra Singh (No. 4071731W now JC-531122N), 01 Feb 2012/28 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Budhi Prasad Sati (No. 4071746Y now JC-531123W), 01 Feb 2012/28 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Kunwar Singh (No. 4071561X now JC-531124Y), 01 Feb 2012/28 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Rajendra Singh (No. 4071761N now JC-531125F), 01 Feb 2012/28 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Rajendra Prasad (No. 4071835X now JC-531126K), 01 Feb 2012/28 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Pritam Singh (No. 4071923N now JC-531127M), 01 Feb 2012/28 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Charan (No. 3182883W now JC-531128P), 01 Jan 2012

Hav Gautam Singh (No. 4069731X now JC-531129X), 01 Jan 2012

Hav Mangal Singh (No. 4269015W now JC-531130M), 01 Jan 2012

Hav Amod Kumar (No. 3183268L now JC-531131P),
01 Jan 2012

Hav Hoshiyar Singh Rawat (No. 4070949W now JC-531132X), 01 Jan 2012

Hav Sabar Singh (No. 4070432L now JC-531133A),
01 Jan 2012

Hav Geeta Singh (No. 4070463L now JC-531134H),
15 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Chandra Singh (No. 4070808F now JC-531135L), 01 Jan 2012

Hav Virendra Singh (No. 4071022F now JC-531136N),
01 Jan 2012

Hav Brijmohan Singh (No. 4070957P now JC-531137W),
01 Jan 2012

Hav Jaipal Singh Rawat (No. 4071115W now JC-531138Y), 01 Jan 2012

Hav Yogesh (No. 4071401X now JC-531139F),
01 Jan 2012

Hav Hoshiyar Singh Rawat (No. 4071898A now JC-531140W), 04 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Vinod Singh (No. 4072007Y now JC-531141Y),
04 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Tajwer Singh (No. 4072189X now JC-531142F),
03 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Uttam Singh (No. 4071473F now JC-531143K),
01 Jan 2012

Hav Birendra Singh (No. 4072441L now JC-531144M),
01 Jan 2012

Hav Rakesh Negi (No. 4072228L now JC-531145P),
07 Feb 2012/01 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Baldev Singh (No. 4072230H now JC-531146X),
04 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Bijender Singh (No. 4072346Y now JC-531147A),
04 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Chandra Mohan Singh (No. 4072046X now JC-531148H), 01 Feb 2012/01 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Jagmohan Singh Negi (No. 4071045H now JC-531149L), 03 Jan 2012/01 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Kalpai Singh (No. 4071254A now JC-531150A),
09 Feb 2012/17 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Harsha Singh (No. 4071414P now JC-531153N),
09 Feb 2012/01 Feb 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk SD)

Hav (Clk SD) Harish Chandra Sharma (No. 4071676L
now JC-531151H), 01 Feb 2012

Hav (Clk SD) Patil Prakash Shivaji (No. 4071955W now
JC-531152L), 15 Feb 2012/01 Feb 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk SD)
wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

8 GR

To be Nb Sub (GD)

Hav Part Bahadur Thapa (No. 5753007M now JC-623983K), 09 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Gam Bahadur Thapa (No. 5752249H now JC-623984M), 01 Jan 2012

Hav Ran Bahadur Rana (No. 5752304N now JC-623985P), 07 Feb 2012

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Yam Bahadur Thapa (No. 5752319W now JC-623986X), 06 Feb 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Jit Bahadur Rana (No. 5752269W now JC-623987A),
01 Feb 2012

Hav Ram Bahadur Thapa (No. 5752212F now JC-623978Y), 01 Nov 2011

Hav Chandra Bahadur GC (No. 5752415L now JC-623979F), 01 Nov 2011

Hav Mekh Bahadur Gurung (No. 5752464N now JC-623980W), 25 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ganesh Bahadur Thapa (No. 5751749N now JC-623981Y), 01 Jan 2012

Hav Dhan Bahadur Chhetri (No. 5752931A now JC-623982F), 09 Jan 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

S KARMAKAR
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 437, dated 26th September 2012—The President is pleased to make the following Appointment/Promotion :—

Hav to be Nb Sub Tech Comm

M Perumal (No. 14616799M now JC-766917K), 01 May 2012/01 Apr 2012*

Hav to be Nb Sub Armt Tech Ftr (FD)

Kailash Chandra Joshi (No. 14594934M now JC-766920K), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Nabin Kumar Chaudhary (No. 14595112F now JC-767012N), 01 May 2012

Hav to be Nb Sub Auto Tech Elect B Veh

Narendra Singh (No. 14597117Y now JC-767009N), 25 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav to be Nb Sub Welder

Babu Singh (No. 14594530K now JC-767014Y), 01 May 2012

Raj Kumar (No. 14596474P now JC-767013W), 01 May 2012

Dulai Paul (No. 14596993X now JC-767048M), 02 May 2012/01 May 2012*

Banbari Singh Sikarwar (No. 14597238A now JC-767049P), 03 May 2012/01 May 2012*

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Suryawanshi Vasantrao (No. 14595189K now JC-767050K), 10 May 2012/01 May 2012*

Vijay Shankar Singh (No. 14596008A now JC-767039L), 01 May 2012

Hav to be Nb Sub Tech Opto Elect

Niyas Nishan M (No. 14636906K now JC-767073L), 07 May 2012/01 May 2012*

Hav to be Nb Sub Ptr & Dectr

Rajendra Singh Bargali (No. 14617062K now JC-766921M), 01 Apr 2012

HMT to be Nb Sub Master Tech B Veh

Virendra Singh Sen (No. 14620037W now JC-765659H), 26 Apr 2012/01 Nov 2010*

Vanka Bhaskara Rao (No. 14622420N now JC-765692L), 11 Apr 2012/01 Feb 2011*

Mritunjay Pandit (No. 14622657L now JC-765797K), 11 Apr 2012/01 Feb 2011*

Brijesh Pratap Yadav (No. 14623183F now JC-766989N), 03 May 2012/30 Oct 2011*

Bhosale VK (No. 14624853K now JC-766993W), 24 Apr 2012/01 Apr 2012*

Raj Kumar (No. 14624542W now JC-766994Y), 24 Apr 2012/01 Apr 2012*

Kamal Singh Mukati (No. 14624623W now JC-766997M), 19 Apr 2012/01 Apr 2012*

Mohan Prasad (No. 14624575F now JC-766999X), 23 Apr 2012/01 Apr 2012*

Rajendra Singh (No. 14624879Y now JC-767001F), 30 Apr 2012/01 Apr 2012*

HMT to be Nb Sub Master Tech Rdr

Rajesh Joshi (No. 14627353X now JC-766983M), 10 Apr 2012/01 Apr 2012*

Nilate Gorak Vasant (No. 14631061M now JC-767074N), 15 May 2012/01 May 2012*

*(Gtd ante dated seniority)

Hav to be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Shayam Karan Singh (No. 14594958W now JC-766895W), 01 Apr 2012

Sanjay Dev (No. 14598248W now JC-767016K), 25 Apr 2012/01 Apr 2012*

Raj Kumar Maurya (No. 14598225P now JC-767051M), 14 May 2012/01 Apr 2012*

Jagat Singh (No. 14598601X now JC-767075W), 18 May 2012/01 May 2012*

Jaddan Singh Rathore (No. 14599028Y now JC-767055H), 16 May 2012/01 May 2012*

Jadhav Vijay Bhim Rao (No. 14598846N now JC-767076Y), 01 May 2012

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Shaik Khadar Vali (No. 14606276A now JC-767101M), 04 Jun 2012/01 Jun 2012*

M Jagannathan (No. 14606282N now JC-767102P),
01 Jun 2012

Jagdish Chandra (No. 14605523W now JC-767008L),
26 May 2012/01 May 2012*

Sikandar Yadav (No. 14605920P now JC-767061W),
04 May 2012/01 May 2012*

Aswani Kumar Singh (No. 14605959F now JC-767064K),
12 May 2012/01 May 2012*

G Ravi (No. 14606152L now JC-767098X), 01 Jun 2012

Nagar Singh (No. 14606010N now JC-767092W),
02 Jun 2012/01 Jun 2012*

Hav to be Nb Sub Tech SA

P Venkatesan (No. 14606281L now JC-767071A),
03 May 2012/01 May 2012*

Nirsu Narayan Singh (No. 14606399M now JC-
767070X), 12 May 2012/01 May 2012*

Virendra Singh (No. 14596028N now JC-767066P),
09 May 2012/01 May 2012*

Tarun Kumar Nath (No. 14605129L now JC-766657K),
02 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Rakesh Kumar (No. 14604179K now JC-767137L),
02 Jun 2012/01 Jun 2012*

Shyam Sunder Singh (No. 14604951H now JC-767153H),
05 Jun 2012/01 Jun 2012*

Hav to be Nb Sub Master Tech AVN (I & P)

Ashwini Kumar (No. 14628774M now JC-766894N),
09 May 2012/04 Feb 2012*

Hav to be Nb Sub Welder

Bhanwar Lal (No. 14599899Y now JC-767080F),
01 Jun 2012

Surat Chandra Roy (No. 14602143M now JC-767082M),
01 Jun 2012

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Shiv Shankar Tiwari (No. 14595922K, now JC-767040A),
01 May 2012

Hav to be Nb Sub Auto Elect B Veh

R Manikandan (No. 14597207A now JC-767115M),
01 Jun 2012

Hav to be Nb Sub Ptr & Dectr

Achchhe Ram (No. 14613616A now JC-767088N),
01 Jun 2012

Hav to be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Vipan Kumar Verma (No. 14599857M now JC-767126Y),
05 Jun 2012/01 Jun 2012*

Shiv Shankar Yadav (No. 14599618X now JC-767123L),
01 Jun 2012

Sunil Chandra Roy (No. 14600692N now JC-767134X),
12 Jun 2012/01 Jun 2012*

Ajai Kumar Singh (No. 14598945W now JC-767120X),
07 Jun 2012/01 Jun 2012*

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Rakesh Kumar Pandey (No. 14606550M now JC-
767096M), 01 Jun 2012

Reet Ram (No. 14605547A now JC-767027W), 05 May
2012/01 May 2012*

Khushal Singh (No. 14606238K now JC-767099A),
04 Jun 2012/01 Jun 2012*

Satish Kumar (No. 14606729A now JC-767104A),
01 Jun 2012

Layak Ram Sharma (No. 14606079X now JC-767034M),
02 Jun 2012/01 Jun 2012*

Sahdev Singh (No. 14605980K now JC-767035P),
04 Jun 2012/01 Jun 2012*

Saway Singh Rawat (No. 14605999H now JC-767037A),
04 Jun 2012/01 Jun 2012*

Sekhar Kumar Mallick (No. 14606199W now JC-
767093Y), 04 Jun 2012/01 Jun 2012*

S Murali (No. 14606208M now JC-767094F), 12 Jun
2012/01 Jun 2012*

Ch Raman Singha (No. 14606293A now JC-767103X),
09 Jun 2012/01 Jun 2012*

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Khurshid Ahmed (No. 14604047W now JC-767152A),
07 Jun 2012/01 Jun 2012*

Hare Kishan (No. 14604019K now JC-767141N), 02 Jun
2012/01 Jun 2012*

Satyendra Palsingh Tomar (No. 14604189N now JC-
767139W), 01 Jun 2012

Mahavir Prasad (No. 14604186A now JC-767138N),
01 Jun 2012

Ramesh Chand (No. 14604040M now JC-767150P),
04 Jun 2012/01 Jun 2012*

Hari Om Singh (No. 14604184P now JC-767136H),
02 Jun 2012/01 Jun 2012*

Daya Ram (No. 14604036K now JC-767145K), 04 Jun
2012/01 Jun 2012*

Mahender (No. 14604017Y now JC-767140L), 02 Jun 2012/01 Jun 2012*

Hav to be Nb Sub Tech SA

Raj Narayan Yadav (No. 14606359L now JC-766964F), 01 May 2012

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Vijay Kumar (No. 14600964H now JC-766948K), 21 Apr 2012/01 Apr 2012*

Narayan Datta (No. 14601930F now JC-767042L), 02 May 2012/01 May 2012*

Bhanwar Singh (No. 14596064Y now JC-766931W), 10 Apr 2012/01 Apr 2012*

Sutar Rajendra Digambar (No. 14603101M now JC-767044W), 01 May 2012

Gupta Sunil Kumar S Lal (No. 14603422K now JC-767047K), 01 May 2012

Bisht Jagdish Chandra Singh (No. 14603420Y now JC-767046F), 01 May 2012

Desabatra Baidya (No. 14601918A now JC-767041H), 01 May 2012

Mahabir Singh Rana (No. 14601939W now JC-767043N), 01 May 2012

Madke Suresh Ramji (No. 14603124N now JC-767045Y), 01 May 2012

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

E Amuten Singh (No. 14651002F now JC-767023A), 03 May 2012/01 May 2012*

M Sanjit Singh (No. 14651525A now JC-767024H), 03 May 2012/01 May 2012*

Harikesh Chandra Tiwari (No. 14605878F now JC-767029F), 03 May 2012/01 May 2012*

Hari Dasan PV (No. 14605924L now JC-767063F), 04 May 2012/01 May 2012*

Rajesh Kumar Pandey (No. 14605908N now JC-767059Y), 01 May 2012

Ramesh Singh (No. 14605559P now JC-767028Y), 05 May 2012/01 May 2012*

Abhay Kumar (No. 14605898P now JC-767030W), 01 May 2012

Vinod Kumar Maurya (No. 14605923H now JC-767062Y), 05 May 2012/01 May 2012*

Md Qayum (No. 14605901K now JC-767031Y), 01 May 2012

Anirudh Kumar (No. 14606038N now JC-767060N), 08 May 2012/01 May 2012*

Sarvesh Kumar Yadav (No. 14605215W now JC-767026N), 03 May 2012/01 May 2012*

Hav to be Nb Sub Opr Dvr (Rec)

Chanchal Singh (No. 14598471A now JC-766975N), 09 Apr 2012/01 Apr 2012*

Anala Appa Rao (No. 14598467X now JC-766974L), 10 Apr 2012/01 Apr 2012*

Naresh Kumar (No. 14597808L now JC-767011L), 30 Apr 2012/01 Apr 2012*

Naru Gopal Singha Roy (No. 14595011N now JC-766903K), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Bhoop Singh (No. 14599058W now JC-767056L), 05 May 2012/01 May 2012*

Balakrishna Patil (No. 14598664A now JC-767053X), 06 May 2012/01 May 2012*

Virendra Singh (No. 14598828L now JC-767054A), 04 May 2012/01 May 2012*

M A Narasayya Reddy (No. 14599350L now JC-767057N), 01 May 2012

Dinabandhu Kumar (No. 14593412N now JC-767052P), 04 May 2012/01 May 2012*

Hav to be Nb Sub Tech SA

Santosh Kumar Sharma (No. 14606366F now JC-766968X), 30 Apr 2012/01 Apr 2012*

Lachha Ram Samriya (No. 14606664X now JC-766966M), 11 Apr 2012/01 Apr 2012*

Sannappan A (No. 14606367K now JC-766965K), 18 Apr 2012/01 Apr 2012*

Dibakar Pradhan (No. 14606393L now JC-767068A), 05 May 2012/01 May 2012*

Rameshwar Singh (No. 14601301K now JC-767067X), 07 May 2012/01 May 2012*

Prem Kumar (No. 14600351H now JC-766955A), 06 Apr 2012/01 Apr 2012*

Om Prakash Pandey (No. 14606385M now JC-767069H), 07 May 2012/01 May 2012*

HMT to be Nb Sub Master Tech AVNS

Yesh Pal Singh (No. 14636206W now JC-766892H), 12 Mar 2012/01 Mar 2012*

HMT to be Nb Sub Master Tech AVN Elect

Parmar Mangabhai (No. 14628359L now JC-767021P), 02 May 2012/01 May 2012*

Manoj Kumar Rout (No. 14629046Y now JC-767022X),
02 May 2012/01 May 2012*

Hav to be Nb Sub Avn Tech Elect

Sam Selvinraj (No. 14628165H now JC-767019X),
02 May 2012/01 May 2012*

Hav to be Nb Sub SKT

Ashok Kumar Yadav (No. 14614728M now
JC-766863N), 30 Apr 2012/01 Apr 2012*

*(Gtd ante dated seniority)

N K KASHMIRA
Under Secy

AIR BRANCH

No. 438, dated 26th September 2012—The President is
pleased to make the following Substantive Promotions :—

INDIAN AIR FORCE

AE BRANCH

To be Subs Air Cmde

Air Cmde V Pande (17647), AE(M), 01 Nov 2011

To be Subs Gp Capt (Flying Branch)

Gp Capt V Mohindra (19867), F(P), 30 Dec 2010

[His name will appear below Gp Capt HP Kumar (19563)
F(P) and above Gp Capt JVS Guron (19879) F(P) in the
Combined Gradation list]

Gp Capt J Babu (18543), AE(L), 16 Jan 2012
(NS-01 Jul 2011)

Gp Capt B Kumar (18495), AE(M), 01 Jul 2011

Gp Capt R Subbarao (18438), AE(M), 16 Jan 2012
(NS-02 Aug 2011)

Gp Capt KK Singh (18736), AE(M), 02 Aug 2011

Gp Capt CC Prani (18739), AE(M), 05 Dec 2011
(NS-01 Sep 2011)

Gp Capt D Bana (18742), AE(L), 01 Sep 2011

Gp Capt IA Khan (18725), AE(M), 05 Dec 2011

Gp Capt Are RRC Reddy (18726), AE(M), 05 Dec 2011

Gp Capt S Singh (18752), AE(L), 05 Dec 2011

Gp Capt S Jain (19078), AE(M), 05 Dec 2011

Gp Capt SK Pathania (19058), AE(L), 05 Dec 2011

Gp Capt MK Sharma (19085), AE(M), 05 Dec 2011

Gp Capt S Akhtar (19083), AE(M), 05 Dec 2011

Gp Capt P Wankhade (19032), AE(L), 05 Dec 2011

Gp Capt CS Sreedharan (19411), AE(M), 16 Jan 2012

Gp Capt AL Trehan (19426), AE(L), 16 Jan 2012

Gp Capt A Goel (19703), AE(M), 16 Jan 2012

Gp Capt M Gupta (19675), AE(L), 16 Jan 2012

Gp Capt K Jain (19707), AE(M), 01 Feb 2012

Gp Capt U Kumar (19729), AE(L), 01 Feb 2012

Gp Capt V Dwivedi (19697), AE(M), 01 Feb 2012

Gp Capt K Radhakrishna (19643), AE(L), 01 Feb 2012

Gp Capt YK Saluja (19696), AE(M), 01 Feb 2012

Gp Capt PS Sethi (19724), AE(L), 01 Feb 2012

Gp Capt R Rex (19716), AE(L), 01 Feb 2012

Gp Capt Y Srinivas (20035), AE(L), 01 Feb 2012

A K SINGH
Dy Dir Perl (Officer)-2B

No. 439, dated 26th September 2012—The President is
pleased to retire Joginder Kumar, Section Officer (DOB :
21.06.1952) Ministry of Defence from Government Service
with effect from 30.06.2012 (AN) on attaining the age of
superannuation.

The President is pleased to retire KK Sharma, Section
Officer (DOB : 20.06.1952) Ministry of Defence from
Government Service with effect from 30.06.2012 (AN) on
attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Prem Sagar, Section
Officer (DOB : 08.06.1952) Ministry of Defence from
Government Service with effect from 30.06.2012 (AN) on
attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Mohd. Idris, Section
Officer (DOB : 07.06.1952) Ministry of Defence from
Government Service with effect from 30.06.2012 (AN) on
attaining the age of superannuation.

T P KERKETTA
Under Secy

CORRIGENDA

No. 440, dated 26th September 2012—In the Notification
of even number dated the 15th June, 2012 in line 3 the Pay
Scale of Rs. 15,600—39,100/- Plus Grade Pay Rs. 8,000/-
plus MSP Rs. 6,000/- may be read as Rs. 37,400—67,000/-
Plus Grade Pay Rs. 8,000/- Plus MSP Rs. 6,000/-.

T P KERKETTA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 441, dated 27th September 2012—The President is pleased to make the following appointment :—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

Gazette of India, Part I Section IV, Ministry of Defence published on 01 May 1999 under the heading Regular Army 'Permanent Commission' is hereby amended as below since IC-56867K Sarsar Mukund Madhavrao, EME has been transferred from 99 Regular Course to 83 Technical Graduate Course.

For : IC-56867K Sarsar Mukund Madhavrao, EME

Read : Blank

Gazette of India, Part I Section IV, Ministry of Defence published on 17 Jul 1999 under the heading Regular Army

'Permanent Commission' is hereby amended as below since the officer has been transferred from 99 Regular Course to 83 Technical Graduates Course. The date of commission of the officer in the rank of Lt will be 07 Dec 96 and granted ante-date seniority wef 11 Jun 1995 alongwith officers of 83 Technical Graduate Course. On account of ante date seniority, no arrears of pay and allowances for the training period and for the period prior to transfer to the Tech Course will be admissible.

D/28921 Sarsar Mukund Madhavrao (IC-56867K), EME with seniority below T/5484 B Vijay Venkatesh (IC-57340F), Engrs

RAHUL SANGWAN
Lt Col
AMS-8B

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012